हिन्दी दैनिक

web-www.plnews.in

R.N.I.NO.UPHIN/2014/56940

पब्लिक की लहर

आम आदमी की आवाज

वर्ष : 12 अंक : 182 पृष्ठ–4 Email: publickilehar@gmail.com लखनऊ बुधवार 24 दिसम्बर 2025 मूल्य 1 : रुपये

संक्षिप्त समाचार

यूपी गैंगस्टर विकास दुबे पर बनी वेब सीरीज को नोटिस जारी

एजेंसी एजेंसी। नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कथित तौर पर गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर आधारित वेब सीरीज 'यूपी 77' को रिलीज किए जाने से रोकने की याचिका पर केंद्र सरकार और वेब सीरीज निर्माताओं से जवाब मांगा। यह याचिका मुठभेड़ में मारे गए दुबे की पत्नी ने दायर की है। वेब सीरीज 25 दिसंबर को ओटीटी मंच 'वेव्स' पर रिलीज होने वाली है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई बुधवार के लिए निधारित की। दुबे 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया था। राज्य पुलिस के अनुसार, कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी दुबे ने मध्यप्रदेश के उज्जैन में आत्मसमर्पण कर दिया था और उसे उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था, तभी उसे ले जा रहा वाहन पलट गया और दुबे ने कथित तौर पर भागने का प्रयास किया। इसी दौरान वह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। दुबे की पत्नी ने उच्च न्यायालय से फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की अपील की। घ्घ्हालांकि, अदालत ने कहा कि वह बुधवार को दोनों पक्षों की बात सुनेगी और फैसला लेगी।

पीएम मोदी से मिले जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा और पत्नी हिमानी

एजेंसी नयी दिल्ली । ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर ने मंगलवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उनके आवास पर हुई इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में फोटो साझा करते हुए यह जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा , आज सुबह 7 लोक कल्याण मार्ग पर नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से मुलाकात हुई। हमने खेलों के साथ–साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत की। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के शुरू में मोदी ने फिटनेस को बढावा देने के नीरज चोपड़ा के प्रयासों की सोशल मीडिया पर काफी सराहना की थी। फिट इंडिया योजना के महत्व पर नीरज चोपड़ा के लेख पर प्रतिक्रिया करते हुए श्री मोदी ने कहा था कि यह दूरदर्शी और प्रेरक लेख मोटापे से लड़ने और स्वस्थ रहने की जरूरत पर बल देता है।

किसान दिवस पर बोले योगी आदित्यनाथ- भाजपा चौधरी चरण सिंह के आदर्शो को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध

एजेंसी लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को चौधरी चरण सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने अपना पूरा जीवन गांवों, गरीबों, वंचितों और किसानों के कल्याण तथा समृद्धि के लिए समर्पित कर दिया। योगी किसान दिवस के रूप में मनाई जाने वाली चरण सिंह की जयंती पर किसान नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की "डबल इंजन सरकार" किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने और भारत रत्न से सम्मानित किसान नेता के आदर्शों को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। योगी ने सिंह की 123वीं जयंती पर किसानों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि उनका परिश्रम नमन करने योग्य है। उन्होंने किसान समृद्धि योजना के तहत ट्रैक्टर पाने वाले किसानों के चेहरे की ''चमक'' का भी जिक्र किया। आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने विधान भवन प्रांगण स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और 'किसान सम्मान दिवस' पर किसानों को ट्रैक्टर की चाबी दी। साथ ही किसानों, वैज्ञानिकों, एफपीओ आदि को सम्मानित भी किया।

किसान दिवस पर राज्यपाल ने मोती की खेती परियोजना का किया शुभारंभ

लखनऊ किसान दिवस पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन परिसर में मोती की खेती (पर्ल फार्मिंग) परियोजना का तालाब में सीप अवतरण कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के समस्त किसानों को किसान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल ने कहा कि देश की प्रगति किसानों की समृद्धि से जुड़ी है और कृषि क्षेत्र में नवाचार ही किसानों की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने परियोजना स्थल पर कृषि–केंद्रित कंपनी मणि एग्रो हब प्राइवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदर्शित मोती के सीप की सर्जरी प्रक्रिया का अवलोकन किया और इसे एक उपयोगी व लाभकारी नवाचार बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी पहलें किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर सृजित

करती हैं। राज्यपाल ने जनपद बलिया के प्रगतिशील किसान श्री जे.पी. पांडेय की प्रेरक सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन, मूल्य संवर्धन और स्थानीय बाजार के विकास से किसान आत्मनिर्भर बन सकता है।उन्होंने कहा, किसान जब ठान लेता है कि उसे कुछ करना है, तो वह बड़ी उपलब्धि हासिल करता है। उन्होंने परिश्रम के साथ सही सोच, प्रभावी प्रबंधन और विभागीय समन्वय पर बल दिया। मौसम के अनुरूप पशुपालन प्रबंधन, नियमित बैठकें, योजनाबद्ध कार्य, नवीनतम तकनीक का उपयोग और औपचारिक प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए। साथ ही, राजभवन में किए जाने वाले नवाचारों को संस्थागत रूप देने और मणि एग्रो हब प्रा. लि. के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर मणि एग्रो हब के निदेशक आनंद त्रिपाठी ने बताया कि मोती की खेती एक वैज्ञानिक, टिकाऊ और लाभकारी कृषि उद्यम है। लगभग 2000 वर्ग फीट के तालाब में 10,000 सीपों की खेती से 18 माह में औसतन 8.5 लाख रुपये तक की शुद्ध आय संभव है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार की मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत इस पर 50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध है। कार्यक्रम में विशेष कार्याधिकारी राज्यपाल (अपर मुख्य सचिव स्तर) डॉ. सुधीर महादेव बोबडे, विशेष कार्याधिकारी शिक्षा डॉ. पंकज एल. जानी, विशेष कार्याधिकारी अशोक देसाई, विशेष सचिव श्रीप्रकाश गुप्ता सहित राजभवन के अधिकारी–कर्मचारी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

किसान दिवस पर बोले योगी, भाजपा चौधरी चरण सिंह के आदर्शो को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध

लखनऊ,23 दिसम्बर 2025 (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को चौधरी चरण सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने अपना पूरा जीवन गांवों, गरीबों, वंचितों और किसानों के कल्याण तथा समृद्धि के लिए समर्पित कर दिया। योगी किसान दिवस के रूप में मनाई जाने वाली चरण सिंह की जयंती पर किसान नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की ''डबल इंजन सरकार'' किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने और भारत रत्न से सम्मानित किसान नेता के आदर्शों को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। योगी ने सिंह की 123वीं जयंती पर किसानों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि उनका परिश्रम नमन करने योग्य है। उन्होंने किसान समृद्धि योजना के तहत ट्रैक्टर पाने वाले किसानों के चेहरे की ''चमक'' का भी जिक्र किया। आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने विधान भवन प्रांगण स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और 'किसान सम्मान दिवस' पर किसानों को ट्रैक्टर की चाबी दी। साथ ही किसानों, वैज्ञानिकों, एफपीओ आदि को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह सीड पार्क अटारी लखनऊ की प्लॉट आवंटन प्रक्रिया की बटन दबाकर शुरुआत की। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपनी मेहनत से किसानों ने प्रगति की है और 2014 में जब नरेन्द्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तब पहली बार किसान भी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बने। उन्होंने कहा, ''अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना से जोड़ा गया, फिर एक–एक करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि, एमएसपी की गारंटी हो या बीज से लेकर बाजार तक किसानों की सुविधाओं को बढ़ाया गया।'' योगी ने सिंह को स्मरण करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के मसीहा, पूर्व प्रधानमंत्री व उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को 'भारत रत्न' देकर किसानों का मान बढ़ाया और लघु व सीमांत किसानों के लिए कृषि ऋण मोचन कार्यक्रम लागू किया। मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह के वक्तव्य का जिक्र किया और कहा, ''वह हमेशा देश, गांव व किसान के हित में काम करते थे। वह कहते थे कि जब तक किसान गरीब रहेगा, भारत अमीर नहीं हो सकता। ग्रामीण भारत ही असली भारत है।'' मेरठ के नूरपुर में 1902 में जन्मे दिग्गज जमीनी नेता चरण सिंह ने 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, धर्मपाल सिंह, डॉ. संजय निषाद, अनिल कुमार, दिनेश सिंह, कपिलदेव अग्रवाल, बलदेव सिंह औलख, गोसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता समेत भाजपा व रालोद के कई विधायक भी मौजूद रहे।

सुनील गावस्कर की बड़ी जीतः दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई डीपफेक और अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक, अश्लील कटेंट हटाने का आदेश

एजेंसी नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर सुनील गावस्कर के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए कई वेबसाइट और ऑनलाइन मंचों पर उनकी सहमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए उनके नाम या छवियों का अवैध रूप से उपयोग करने पर रोक लगाई।

न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा ने कई आरोपियों को कृत्रिम मेधा और डीपफेक तकनीक के माध्यम से गावस्कर के व्यक्तित्व का उपयोग करने से भी रोका और इंटरनेट पर अपलोड की गई कुछ अश्लील सामग्री को हटाने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि आपत्तिजनक सामग्री को यूआरएल वेबसाइटों द्वारा 72 घंटों के भीतर हटा दिया जाना चाहिए और ऐसा करने में विफल रहने पर संबंधित सोशल मीडिया 'इंटरमिडिएरीज' को सामग्री हटा देनी चाहिए। सोशल मीडिया 'इंटरमिडिएरीज' (एसएमआई) फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे मंच हैं जो उपयोगकर्ता के ऑनलाइन संपर्क को सक्षम बनाते हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख तय की। उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर को सोशल मीडिया 'इंटरमिडिएरीज' को गावस्कर की उस याचिका पर सात दिनों के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों के संरक्षण की मांग की थी। मंगलवार को अदालत को सूचित किया गया कि कुछ सामग्री हटा दी गई है, जबकि अन्य अब भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। गावस्कर ने सोशल मीडिया मंच और ई–कॉमर्स वेबसाइट द्वारा उनके नाम, छवियों, व्यक्तित्व आदि के अनधिकृत उपयोग को रोकने और अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

राहुल गांधी के बयानों पर भाजपा का पलटवार, कहा- उनकी पार्टी के लोग और गठबंधन के साथी कर रहे हैं किनारा

एजेंसी नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विपक्ष के नेता विपक्ष राहुल गांधी के जर्मनी में दिये बयानों को लेकर उन पर हमला करते हुये कहा है कि उनके गलत बयानबाजियों से अब उनकी पार्टी के लोग और उनके साथी दलों के नेता उनसे किनारा करने लगे हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय पर एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि श्री गांधी ने बर्लिन (जर्मनी) में भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बयान दिये हैं जिसके बाद उनके साथ के कुछ लोग उनसे किनारा करने की फिराक में हैं। भाजपा प्रवक्ता ने हरियाणा में एक महिला के 200 बार वोट डालने और विनिर्माण के क्षेत्र में भारत के चीन से पिछड़ने वाले बयान पर भी उन्हें घेरा। उन्होंने कहा कि देश का जनमत राहुल गांधी के साथ पहले से नहीं था जिसके चलते अबतक वह 95 चुनाव हार चुके हैं। उन्होंने कहा कि श्री गांधी अनाप शनाप बयान देते रहते हैं और इससे कांग्रेस में असहमति की तरफ इशारा करते हुये कहा कि अब उनके साथ के लोग श्री गांधी की बातों को खारिज करने में लगे हुए हैं। उन्होंने इसी प्रसंग में श्री गांधी के बिहार में वोट चोरी, वोट चोरी के राग अलापने और उसके विपरीत कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के उस बयान का उल्लेख किया जिसमें श्री थरूर ने कहा है कि बिहार में पिछले 20 वर्षों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। पूनावाला ने कहा , इसका मतलब यह है कि उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के खटराग को, उनके हाइड्रोजन बम को पूरी तरह से डिफ्यूज (फुस्स) कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि श्री गांधी के एक और साथी, वामदल के

सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा है कि राहुल गांधी को संसद छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहिए था। इतना ही नहीं, उन्होंने (ब्रिटास ने) तो और बड़ी बात कही कि केवल वाम दल ही नहीं, बल्कि डीएमके ने भी श्री गांधी की इस भारत बदनामी यात्रा के खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि श्री गांधी अपने काम को संजीदगी से नहीं लेते।

उत्तराखंडः मुख्यमंत्री चौंपियंस ट्रॉफी का हुआ आगाज, लगभग दो लाख खिलाड़ी करेंगे शिरकत, चौंपियन को मिलेंगे पांच लाख

एजेंसी देहरादून/हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिला स्थित रोशनाबाद के योगस्थली खेल परिसर में मंगलवार को मुख्यमंत्री चौंपियंस ट्रॉफी का आगाज हुआ। न्याय पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक चार स्तर पर होने वाली इस प्रतियोगिता में लगभग दो लाख खिलाड़ी शिरकत करेंगे और चौंपियन बनने वाले को पांच लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जायगी। राज्य की खेल एवं युवा मामलों की मंत्री रेखा आर्या ने ट्रॉफी का अनावरण और मशाल को प्रज्ज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस बार कुल 26 खेल स्पर्धाएं रखी गई हैं, जिनमें आधुनिक खेलों के साथ परंपरागत खेलों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि सांसद ट्रॉफी जीतने वाली टीम को दो लाख और विधानसभा ट्रॉफी जीतने वाली टीम को एक लाख रुपये का नगद पुरस्कार राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने खिलाड़ियों के हित के लिए नीतिगत फैसले किए जिनमें बाद राज्य में खेलों को लेकर माहौल बदला और एक खेल संस्कृति विकसित होनी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि इस चौंपियनशिप के विजेता भी सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण के हकदार होंगे। श्रीमती आर्या ने कहा कि युवा खेलों को टाइम पास के रूप में नहीं, बल्कि करियर के रूप में अपनाएं। अगर वे शत–प्रतिशत अनुशासन और समर्पण खेल को देंगे तो उन्हें चौंपियन बनने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों के लिए एक लाख रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि घोषित की गई है। प्रतियोगिता के दौरान जीते गए पदकों के आधार पर अंकों का योग करके समग्र चौंपियन का चयन किया जाएगा। चौंपियन चुने गए खिलाड़ी को मुख्यमंत्री ट्रॉफी और पांच लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी।

पवन खेड़ा ने जेपी नड्डा के नक्सली हमले के दावे पर उठाए सवाल, बोले-आप किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए

एजेंसी नयी दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के 2013 के नक्सली हमले को लेकर किए गए दावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे दावों को बिना चुनौती दिए नहीं छोड़ा जा सकता। इसी बीच, पवन खेड़ा ने जेपी नड्डा के दावों को लेकर जांच की मांग की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पिछले दिन दावा किया कि 2013 के नक्सली हमले में कांग्रेस के लोग शामिल थे। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पूछा, उस समय रमन सिंह की सरकार थी। क्या इसका मतलब है कि उनकी सरकार फेल हो गई? समाचार एजेंसी से बातचीत में पवन खेड़ा ने कहा, बारह साल के बाद आप अब क्यों बोल रहे हैं? आप किसे बचाने या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। जेपी नड्डा को क्या पता है, और वह इतने सालों से चुप क्यों थे? उनसे पूछताछ होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की ओर से बिहार सरकार की तारीफ को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जब वह (शशि थरूर) दिल्ली लौटेंगे, तो मैं जरूर कुछ दिनों के लिए उनका चश्मा उधार लूंगा, ताकि बिहार को वैसे ही देख सकूं जैसे वह देखते हैं।राहुल गांधी के इस बयान पर कि श्भारत ने प्रोडक्शन चीन को सौंप दियाश, पवन खेड़ा ने कहा, ष्पूरी दुनिया देख रही है कि यहां क्या हो रहा है। भाजपा के साथ हमारे विचारों के मतभेद किसी से छिपे नहीं हैं। हम उन्हें हर प्लेटफॉर्म पर सामने लाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैसे चीन ने पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर कब्जा कर लिया है, जिसका सीधा असर भारत के बेरोजगार युवाओं पर पड़ रहा है। क्या यह मुद्दा उठाना गलत है? जब हम भारत के बेरोजगार युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर बात करते हैं तो भाजपा क्यों भड़क जाती है?ष्बांग्लादेश के हालात पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, ष्वहां के हालात बहुत गंभीर हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर कड़ी नजर रखेगी और इसे संभालने के लिए सही स्ट्रेटेजी बनाएगी।ष नेशनल हेराल्ड केस पर कांग्रेस नेता ने कहा, ष्जैसा कि मैंने सोमवार को बताया था, एक बार फिर ईडी को कोर्ट में झटका लगा है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के तहत राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसे मना कर दिया गया।

बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिंचिंग के खिलाफ राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन

एजेंसी नयी दिल्ली पिछले हफ्ते बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू युवक की भीड़ ने हत्या कर दी. इस घटना के विरोध में, 23 दिसंबर को नयी दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन हुआ, जिसमें शामिल लोगों की संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है. समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, यह प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हुआ.प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की तस्वीरें जलाईं और उनके खिलाफ नारे लगाए. बांग्लादेश के बहिष्कार की मांग करते पोस्टर दिखे. टीवी फुटेज में दिखा कि प्रदर्शनकारियों ने हाई कमीशन के बाहर लगे बैरिकेडों को पार करने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प हुई.एक प्रदर्शनकारी ने इंडिया टुडे से कहा, हमें जरूरत थी कि दिल्ली में बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज उठाएं और हमने यह कर दिया. जब तक वहां एक भी हिंदू

को नुकसान पहुंचाया जाएगा, हम नहीं रुकेंगे. इससे पहले 20 दिसंबर को भी एक प्रदर्शन हुआ था. बांग्लादेश ने कहा है कि प्रदर्शनों के मद्देनजर भारतीय राजदूत को तलब किया गया और घटनाओं की तफ्तीश करने की मांग की गई. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 20 दिसंबर को हुए प्रदर्शन में ष्20–25 युवकष शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने कुछ ही मिनटों में हटा दिया.लिंचिंग की जिस घटना के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं, वह बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में हुई. यहां भीड़ ने 27 साल के फैक्ट्री कामगार दीपू चंद्र दास को पीटा और फिर आग लगा दी. भीड़ का आरोप था कि दीपू ने ईशनिंदा की है. लिंचिंग के इस केस में कम–से–कम 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

क्रिसमस और नए साल से पहले बढ़ाई गई दिल्ली की सुरक्षा, सीमावर्ती इलाके में तैनात किये गए जवान

एजेंसी नयी दिल्ली । क्रिसमस और नए साल के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने मजबूत सुरक्षा प्रबंध किए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 20,000 पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों को तैनात किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय राजधानी के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। दिल्ली की सीमाएं उत्तर प्रदेश व हरियाणा से लगती है जो राजस्थान से निकट है। नव वर्ष मनाने के लिए इन राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों के शहर में आने की उम्मीद है। अधिकारी ने कहा कि यातायात और अर्धसैनिक बलों सहित लगभग 20,000 पुलिसकर्मी गुंडागर्दी और यातायात नियमों के उल्लंघन के रोकथाम के लिए मौके पर तैनात रहेंगे।

अधिकारी ने बताया कि पड़ोसी राज्यों के लोगों के संभावित उपद्रव से निपटने के लिए सीमाओं पर अतिरिक्त नाके बनाए जाएंगे और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्रिसमस के मद्देनजर 10 से अधिक स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया जा चुके हैं और सुरक्षा जांच को और भी कड़ा किया जाएगा। दिल्ली में 15 और उन स्थानों पर भी पुलिस तैनात की जाएगी जहां गाड़ियां राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करती है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, यातायात पुलिस ने मोटरसाइकिल से किए जाने वाले स्टंट और शराब पीकर गाड़ी चलाने से निपटने के लिए पहले ही योजना बना ली है। यातायात पुलिस की सहायता के लिए विभिन्न थानों से अतिरिक्त बल तैनात किए जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि पुलिस कर्मियों को पाली के अनुसार तैनात किया जाएगा। थानेदारों (एसएचओ) को क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी टीमों के साथ सड़कों पर मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। यदि कोई भी स्टंट जैसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो टीमें तुरंत दो या चार पहिया वाहनों को जब्त कर लेंगी। अधिकारी ने कहा कि सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा, हमारी टीमें बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, होटल, धर्मशाला, रात्रि आश्रय और अन्य स्थानों की जांच कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई भी व्यक्ति उचित दस्तावेजों के बिना तो नहीं रह रहा है।

संपादकीय

जानलेवा आबोहवा

देश–दुनिया में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर भारी चिंता है, लेकिन यह सिर्फ दिल्ली का ही संकट नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा, उ.प्र. व राजस्थान के कई शहर भी प्रदूषणग्रस्त हैं। इसके अलावा लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, कानपुर व देश के अन्य शहरों में भी प्रदूषण संकट आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। हालांकि, इन शहरों में संकट दिल्ली जैसा नहीं है, लेकिन पूरे देश के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने की जरूरत तो है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में तीसरे स्थान पर आने वाली दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक का 450 के आसपास बना रहना, निश्चय ही खतरे की घंटी है। दिल्ली सरकार द्वारा उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम–होम, स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई, तोड़फोड़ व निर्माण पर रोक के बावजूद आशातीत परिणाम सामने नहीं आए हैं। इसी बीच, चीन के दूतावास ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में मदद की पेशकश की है। चीनी दूतावास की एक प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट में स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसमें दिल्ली में एक्यूआई 447 व बीजिंग में 67 दिखाई दे रहा है। निस्संदेह, भारत व चीन दोनों ही तीव्र शहरीकरण की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। लेकिन चीन ने योजनाबद्ध ढंग से उस परिदृश्य को दूर किया है, जिसमें चीन के तमाम शहर सर्दियों में स्मॉग से ढके रहते थे। हालांकि, साम्यवादी चीन व लोकतांत्रिक भारत में नीतियों के क्रियान्वयन में मूलभूत अंतर है। फिर भी चीन की सफलता से सीखा जा सकता है। चीन ने पिछले दो दशकों में आक्रामक ढंग से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया। वाहन उत्सर्जन पर नियंत्रण किया। लाइसेंस प्लेट लॉटरी व ऑड–ईवन से सड़कों पर वाहनों को कम किया। उसने बड़े मेट्रो–बस नेटवर्क को बढ़ाकर सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाया। करीब तीन हजार के करीब भारी उद्योगों को बीजिंग व आसपास के शहरों से हटाया गया। एक बड़ी स्टील कंपनी को हटाने से घातक कणों में बीस फीसदी की कमी आई। सबसे अधिक जोर कोयले पर आधारित बिजली संयंत्रों व उद्योगों पर रोक लगाने में लगा। इसके अलावा, निर्माण स्थलों पर धूल–रोधी जाली लगाने, पानी के छिड़काव–सफाई, किसानों को पराली भत्ता देने व प्रदूषण के पीक समय में निर्माण पर रोक जैसे कदम उठाए। वहां पौधारोपण को बढ़ावा दिया गया। निस्संदेह, बीजिंग व दिल्ली की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन बीजिंग मॉडल पर विचार होना चाहिए। दरअसल, दिल्ली की भौगोलिक परिस्थिति बीजिंग से भिन्न है, दिल्ली लैंडलॉक्ड क्षेत्र है, आसपास समुद्री इलाका भी नहीं है। लेकिन कोयला आधारित संयंत्रों को बंद करने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने तथा औद्योगिक संस्थानों को राजधानी की सीमा से बाहर किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए विशेष बजट की भी व्यवस्था हो। चिंता की बात यह भी है कि दिल्ली की तीन सौ किमी की परिधि में ग्यारह कोयला आधारित पॉवर प्लांट्स हैं, जिन्हें सर्वाधिक प्रदूषण का स्रोत माना जाता है। बहरहाल, दीर्घकालिक नीति बनाने व फैसलों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है।

देश में ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज

बिहार चुनाव जीतने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प.बंगाल और असम जैसे चुनावी राज्यों में सक्रिय हो गए हैं। बीते दो दिनों में उनकी दो सभाएं प.बंगाल और असम में हुईं। प.बंगाल के नादिया जिले में उनका हेलीकॉप्टर धुंध की वजह से न उतर सका तो उन्होंने कोलकाता से ही वर्चुअली सभा को संबोधित किया, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि नादिया में उनके खिलाफ पोस्टर और बैनर लगे थे, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या श्री मोदी विरोध का सामना करने से डर गए और इसलिए धुंध को लौटने का कारण बताया जा रहा है। क्योंकि पंजाब चुनाव के वक्त वे किसानों के विरोध की वजह से बीच रास्ते से लौट आए थे और तब उन्होंने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कहना मैं जिंदा वापस लौट आया। लोकतांत्रिक देश में जनता के विरोध को जान पर खतरे की तरह दिखाना यह बताता है कि प्रधानमंत्री को लोकतंत्र में जनता को मिले अधिकार सुहाते नहीं हैं। खैर, ठंड का मौसम बीतेगा और धुंध खत्म होगी, तब तो नरेन्द्र मोदी को बंगाल में प्रचार के लिए जाना ही होगा, तब अगर विरोध होता है, तो कितनी बार वे लौटेंगे, ये देखना होगा।प.बंगाल में नरेन्द्र मोदी असम गए और वहां उन्होंने इतिहास की गलत बयानी कर पं.नेहरू और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन इस कोशिश में श्री मोदी ने खुद को उपहास का पात्र बना दिया है कि आखिर कब तक वे इतिहास को तोड़–मरोड़ कर पेश करेंगे। दरअसल श्री मोदी ने 20 दिसंबर को गुवाहाटी

में आरोप लगाया कि श्कांग्रेस ने स्वतंत्रता से पहले ही इस जगह की पहचान मिटाने की साजिश रची थी, जब मुस्लिम लीग और ब्रिटिश ताकतें मिलकर भारत को बांटने की जमीन तैयार कर रही थीं, उस समय असम को भी पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना थी। कांग्रेस भी उस साजिश का हिस्सा बनने वाली थी। तब बोरदोलोई जी ने अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर असम की पहचान मिटाने की इस कोशिश का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचाया।लेकिन हकीकत यह है कि मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए तीन ब्रिटिश कैबिनेट सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था, जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए तीन स्तरीय प्रशासनिक संरचना का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें शीर्ष स्तर पर संघीय संघ, निचले स्तर पर अलग–अलग प्रांत और मध्य स्तर पर प्रांतों के समूह थे। उत्तर–पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और भारत के शेष मध्य भागों के लिए समूह ए, बी और सी नामक तीन समूहों का प्रस्ताव रखा गया था। समूह ए में हिंदू बहुल प्रांत (जैसे बॉम्बे, मद्रास, यूपी) थे, समूह बी में मुस्लिम बहुल प्रांत (पंजाब, सिंध, उत्तर–पश्चिमी सीमांत प्रांत) थे और समूह सी में बंगाल और असम, जिसमें बंगाल मुस्लिम बहुल था, जबकि असम हिंदू बहुल। मुस्लिम लीग चाहती थी कि पूरा समूह सी पाकिस्तान का हिस्सा बने। लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। न ही कांग्रेस ये चाहती थी कि असम को बंगाल के साथ मिलाया जाए। 29 दिसंबर 1946 के श्हरिजनश अखबार में श्गांधीजी की असम को सलाहश शीर्षक से प्रकाशित लेख में इसका स्पष्ट उल्लेख है। नेहरू भी असम को पाकिस्तान या बंगाल के साथ मिलाने के खिलाफ थे। 22 जुलाई 1946 को गोपीनाथ बोरदोलोई को पत्र में नेहरूजी ने लिखा, श्समूह के खिलाफ फैसला करना सही और उचित था।श इसके बाद 23 सितंबर 1946 को लिखा, श्किसी भी हालत में हम असम जैसे प्रांत को उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर करने पर सहमत नहीं होंगे।श अप्रैल 1946 में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में पं. नेहरू ने कहा, श्उत्तर–पश्चिम सीमा प्रांत में मुस्लिम बहुल होने के बावजूद लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया... असम भी स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के खिलाफ है।श कांग्रेस के जबरदस्त विरोध के बाद अंग्रेजों ने असम को पाकिस्तान में मिलाने की योजना को रद्द कर दिया। कैबिनेट मिशन प्लान को कांग्रेस ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। नेहरू के 10 जुलाई 1946 के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की स्पष्ट अस्वीकृति और असहमति माना गया। ये सारी बातें सौ साल पुरानी भी नहीं हैं, तब के अखबारों की कतरनों में देखा जा सकता है कि गांधी, नेहरू, कांग्रेस पार्टी और गोपीनाथ बोरदोलोई सबके विचार इस मुद्दे पर एक जैसे थे। लेकिन नरेन्द्र मोदी कह रहे हैं कि बोरदोलोई ने अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर असम बचाया।दरअसल असम में अब भाजपा के खिलाफ एंटीइनकमबेंसी दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस गौरव गोगोई के नेतृत्व में वहां लगातार जमीन पर सक्रिय है। इसलिए भाजपा अब वहां झूठा इतिहास बताकर कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश में है, जिसमें नरेन्द्र मोदी का पहला ही दांव बेकार गया है। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी भाजपा शुरु से उठाती रही है और हिमंता बिस्वासरमा लगातार सांप्रदायिक विभेद बढ़ाने वाले फैसले ले रहे हैं, इनका लाभ भाजपा को मिलेगा या नहीं देखना होगा।पं.बंगाल में भी नरेन्द्र मोदी यही कोशिश कर रहे हैं। हुमायूं कबीर जैसे नेता बाबरी मस्जिद बनवाने की शुरुआत कर परोक्ष रूप से ध्रुवीकरण में भाजपा की मदद कर रहे हैं। बचा हुआ काम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत पूरा करने की कोशिश में है। श्री भागवत ने रविवार को कोलकाता में कहा कि यदि सभी हिंदू एकजुट होकर खड़े हो जाएं, तो प. बंगाल की स्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उनका यह बयान चुनावी पृष्ठभूमि तैयार करने की तरह देखा जा रहा है। भले संघ खुद को एनजीओ बताए, लेकिन वह खुलकर राजनीति कर रहा है। मोहन भागवत अपने बयान में संविधान की अवहेलना करते भी दिखे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। अगर संसद कभी संविधान में संशोधन करके वह शब्द जोड़ने का फैसला करती है, तो करें या न करें, ठीक है। हमें उस शब्द की परवाह नहीं है क्योंकि हम हिंदू हैं, और हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। यही सत्य है।संघ प्रमुख ने मोदी सरकार को इशारा दे दिया है कि अब संविधान में संशोधन कर हिंदू राष्ट्र का ऐलान उसका अगला पड़ाव होगा। मोहन भागवत और नरेन्द्र मोदी दोनों के बयान खतरनाक हैं और देश में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाले हैं। इससे भले उन्हें सत्ता मिल जाए, लेकिन इसका जो दीर्घकालिक नुकसान देश को होगा, वह चिंतनीय है।

काम का अधिकार कम न हो, उलटे इसे बढ़ाया जाना चाहिए

मनरेगा का विचार 'राइट टु वर्क' से प्रेरित था। यूएन ने काम के अधिकार को बुनियादी मानवीय हक माना था। इसे मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा–पत्र में भी सम्मिलित किया गया है। श्रम कानून और उचित मजदूरी भी बुनियादी सिद्धांत हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मनरेगा में किए गए बदलावों को समझना जरूरी है। काम के अधिकार के तहत स्थानीय निकायों, विशेषकर पंचायतों, को जिम्मेदारी दी गई थी कि वे स्थानीय स्तर पर चिह्नित परियोजनाओं की सूची से काम उपलब्ध कराएं और उनका क्रियान्वयन करें। मनरेगा ने इसे संस्थागत रूप दिया था। अनेक वर्षों के दौरान डिजिटलीकरण, जीपीएस टैगिंग और मजदूरी के सीधे बैंक खातों में भुगतान से इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत हुई। वहीं राज्यों ने मनरेगा को अन्य बुनियादी ढांचा योजनाओं के साथ जोड़ा, जिससे टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ। लेकिन नई योजना के तहत किए गए बदलाव इस मॉडल से हटने का संकेत देते हैं। चयनित क्षेत्रों और सीमित कार्यों को एक केंद्रीकृत ढांचे में सीमित कर देने से स्थानीय जरूरतों की पहचान कमजोर होगी। खेती के मौसम के दौरान वाले कार्यों को बंद करने से खेत–मजदूर की मोलभाव की क्षमता कमजोर होगी। जबकि पुरानी योजना के तहत मनरेगा ने कृषि मजदूरी को बेहतर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई थी। नई व्यवस्था में चिंता का विषय केवल यही नहीं है कि राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 40: कर दी गई है– जो पहले सामग्री की लागत का केवल 10: थी। चिंता का विषय यह भी है कि इससे राज्यों के संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जीएसटी के बाद कर–संग्रह मुख्यतया केंद्र के हाथ में चला गया है (ईंधन पर वैट और शराब पर उत्पाद शुल्क को छोड़कर)। सीमित संसाधनों वाले राज्य 40: हिस्सेदारी को वहन करने में असमर्थ रहेंगे, जिसका नतीजा मजदूरी के भुगतान में देरी या काम न मिलने के रूप में सामने आ सकता है। एक और समस्या उस शर्त से जुड़ी है, जिसमें कहा गया है कि काम 'फंड की उपलब्धता' के अनुसार दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि काम पर सीमा तय कर दी गई है, जो 'काम के अधिकार' की मूल भावना के विपरीत है। अब काम तभी मिलेगा, जब पैसा होगा। नई व्यवस्था में जिन क्षेत्रों को कार्य के लिए चिह्नित किया गया है, वे भी श्रम की तुलना में अधिक सामग्री–आधारित हैं। उदाहरण के लिए जल परियोजनाओं में अधिकतम खर्च पाइप और टैंक निर्माण पर होता है, यही स्थिति टॉयलेट्स के निर्माण में भी है। इससे श्रम आधारित रोजगार सृजन की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। इसके विपरीत, पहले की व्यवस्था के तहत सड़क निर्माण में मिट्टी के काम, कृषि भूमि में कार्य, कुओं का निर्माण जैसे श्रम–प्रधान कार्य संभव हो पाते थे, जिससे अधिक रोजगार सृजित होते थे। जरूरत इस बात की है कि नई योजना के स्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाए और कार्यों की उपलब्धता पूरे साल सुनिश्चित की जाए। 'काम के अधिकार' की मूल भावना यह है कि परियोजनाओं की उपलब्ध सूची से, निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर, मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाए और परिसंपत्तियों का निर्माण भी हो। निस्संदेह, इस व्यवस्था में समय–समय पर सुधार की आवश्यकता रही है और आगे भी रहेगी, विशेष रूप से समय पर धन का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए। कार्य क्षेत्रों को सीमित करने की अवधारणा केवल पिछड़े और आदिवासी जिलों तक ही उचित हो सकती है। लेकिन निर्णय लेने का अधिकार विकेंद्रीकृत होना चाहिए। कई बार आपदा की स्थिति में बड़े पैमाने पर काम लेना अनिवार्य हो जाता है– जैसा कि महामारी के दौरान हुआ था। तब प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा जीवनरेखा साबित हुई थी। मनरेगा पहली ऐसी योजना थी, जिसने मजबूत घरेलू डेटा आधार पर डीबीटी को लागू किया और वित्तीय–समावेश की दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत की। शून्य–बैलेंस खाते खोले गए, जो बाद में बचत खातों में बदले और जमा तथा अन्य बचत लाभों को प्रोत्साहित किया।

इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब को जनपद बांदा एवं चित्रकूट शीघ्र प्रारम्भ की जायेः आयुक्त

बांदा। मंगलवार को चित्रकूटधाम मण्डल के आयुक्त अजीत कुमार की अध्यक्षता में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मण्डलीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मण्डल के अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस), अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसीएमओ), जिला प्रतिरक्षण अधिकारी (डीआईओ), मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अधिकारी एवं कर्मचारी, डेवलपमेंट पार्टनर एजेंसियां यूनीसेफ, यूएनडीपी,यूपीटीएसयू सहित अन्य जनपदीय नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान आयुक्त द्वारा मण्डल की चिकित्सा सेवाओं की रैंकिंग में सुधार एवं कार्यों में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया तथा अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की गई।

आयुक्त महोदय ने "इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब को जनपद बांदा एवं चित्रकूट में शीघ्र प्रारम्भ कराने के निर्देश जिला चिकित्सालय (पुरुष) के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को दिए। साथ ही जनपद महोबा एवं हमीरपुर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को मानक के अनुरूप सभी आवश्यक जांचें प्ध्भ्स् लैब के माध्यम से कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जनपद हमीरपुर के जिला पुरुष चिकित्सालय में अब तक ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट प्रारम्भ न होने पर आयुक्त महोदय ने शीघ्र लाइसेंस प्राप्त कर यूनिट प्रारम्भ करने के निर्देश सीएमएस को दिए।

मण्डल, जनपद एवं ब्लाक स्तर के समस्त पर्यवेक्षकीय अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक माह नियमित पर्यवेक्षण भ्रमण कर चेकलिस्ट में अद्यतन जानकारी भरने तथा चिन्हित कमियों (गैप) के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित इकाई, ब्लाक एवं जनपद स्तर पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिए गए।

प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर इशेंशियल ड्रग लिस्ट (म्क्स्) के अनुसार दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं उनकी अद्यतन सूची ओपीडी परिसर में प्रदर्शित कराने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को समय से खोले जाने तथा चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति

सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

दिव्यांगजनों को समय से दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए कि निर्धारित दिवसों पर दिव्यांग बोर्ड के चिकित्सक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। इसके अतिरिक्त तहसील दिवसों के दौरान भी विशेष कैंप लगाकर दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। बैठक में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिन संकेतकों (इंडीकेटर्स) पर प्रगति संतोषजनक नहीं है, उनमें आगामी माह तक अपेक्षित सुधार अवश्य परिलक्षित होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों (70 वर्ष से अधिक आयु) का शत–प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए गए, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके।

आयुक्त ने वी.एच.एन.डी. सत्रों के नियमित आयोजन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि सभी सीएमओ यह सुनिश्चित करें कि सत्र समय से आयोजित हों तथा आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गुणवत्तापूर्ण मोबिलाइजेशन किया जाए।

डॉक्टरों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को ई–संजीवनी पोर्टल का अधिकतम उपयोग करने तथा आम जनता को इसके प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। मरीजों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए आयुक्त ने पंजीकरण व्यवस्था को सरल एवं डिजिटल बनाने पर बल दिया। जिला चिकित्सालयों में ओपीडी पर्चे की लंबी लाइनों से राहत दिलाने हेतु आभा के माध्यम से डिजिटल पंजीकरण प्रणाली अपनाने और आमजन को इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया गया। उन्होंने अस्पतालों में डाक्टरों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने, मरीजों के साथ शालीन एवं संवेदनशील व्यवहार करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि स्वास्थ्य सेवाएं आमजन तक अधिक सरल, सहज एवं प्रभावी रूप में पहुंचें, जिसके लिए सभी अधिकारियों को पूरी निष्ठा एवं समर्पण भाव से कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त बैठक में कोविड–19 स्टाफ के शेष कर्मियों के समायोजन, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, एमबीबीएस/आयुष चिकित्सकों के वॉक–इन साक्षात्कार, एनएचएम की वित्तीय उपलब्धियां, आशा/आशा संगिनी चयन, क्टक्डै पोर्टल, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की क्रियाशीलता, एनसीडी स्क्रीनिंग, प्रथम संदर्भन इकाई की कार्यक्षमता, मातृ स्वास्थ्य के 11 परफॉर्मेंस इंडीकेटर, नियमित टीकाकरण, गुणवत्ता कार्यक्रम अंतर्गत कायाकल्प/एनक्यूएएस, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एनबीएसयू सहित अन्य कार्यक्रमों पर अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जसपुरा ब्लॉक में विकास कार्यो की जमीनी पड़ताल, सीसी रोड निर्माण की गुणवत्ता परखी

जसपुरा। जसपुरा ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की सोमवार को स्थलीय समीक्षा की गई। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री महेश निषाद के नेतृत्व में विभिन्न गांवों और मजरों में चल रहे सीसी रोड निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान मड़ौली कलां, सबादा के मजरा पियासी डेरा, गजुवा डेरा, दीनदयाल का डेरा, बड़ागांव के मजरा बेलापुर, जयपालपुर डेरा, महादेवन डेरा तथा चंदवारा सहित सभी ग्राम पंचायतों में सीसी रोड निर्माण कार्यों की देखरेख की गई। मौके पर अधिकांश कार्य गुणवत्ता पूर्ण और मानक के अनुरूप पाए गए। मड़ौली कलां में शिवाकांत साहू, दिनेश प्रजापति, महेश साहू, भगवानदास यादव, रमाकांत यादव, ओंकार प्रजापति, रामौतार सिंह, अरविंद निषाद तथा सबादा के दीनदयाल डेरा में रवि निषाद, श्याम निषाद, मोतीलाल निषाद, बबली निषाद और पियासी डेरा में प्रेम निषाद, युवराज निषाद, राकेश निषाद, सिपूजन निषाद व पवन निषाद मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान संबंधित सचिवों को साफ–सफाई और कार्यों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री महेश निषाद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य कराना क्षेत्र पंचायत की प्राथमिकता है।

बाल विवाह, किशोर अपराधों व हिंसा की रोकथाम के लिए मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन

बांदा। पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में बाल विवाह, बाल अपराधों/हिंसा, मानव तस्करी आदि की रोकथाम आदि हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज पुलिस लाइन बांदा नवीन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा शिवराज की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई के तत्वावधान में मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया । बैठक में बाल विवाह की रोकथाम, किशोर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, बाल हिंसा के मामलों में त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई, पीड़ित बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई । अपर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाल अपराध/हिंसा से जुड़े सभी मामलों पर संवेदनशील के साथ त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा सक्रियता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करें साथ ही जनपद में बाल संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से अभियान चलाए जाएं, पीड़ितों को अधिक से अधिक आवश्यक सहायता प्रदान कराने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाए । इस दौरान बाल विवाह अपराधों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा करते हुए 4 दिसंबर 25 से 8 मार्च 26 तक 100 दिवस का विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में लोगों को जागरुक कराने हेतु जनपद के सभी थानों को उनसे जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं आदि की जानकारी देते हुए सभी को निर्देशित किया कि बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल

प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें । स्कूल, ग्राम स्तर एवं शहरी क्षेत्रों में जन–जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को और अधिक जागरुक करें जिनमें महिलाओं और बच्चों को जागरुक करने हेतु विशेष जोर दिया जाए । साथ ही लोगों को इस सम्बन्ध में शपथ भी दिलाई गई ।बाल अपराध/हिंसा के मामलों में पीड़ित बच्चों के साथ संवेदनशील व्यवहार करते हुए संबंधित विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर त्वरित कानूनी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें किसी भी प्रकार की समस्या या कानूनी अड़चन आने पर तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराए साथ ही सम्बन्धित विभागों से भी सम्पर्क करें । समीक्षा बैठक में बाल कल्याण समिति के सदस्य , यूनिसेफ सदस्य,वन स्टॉप सेंटर सर्दस्य, चाइल्ड लाइन सदस्य, विशेष किशोर पुलिस इकाई व एएचटीयू टीम , समस्त थाना बाल कल्याण अधिकारी ग्रामीण स्वावलंबन समिति संस्था सदस्य, ग्रामीण परंपरा संस्था सदस्य, यूपी साथी संस्था सदस्य आदि के सम्बन्धित विभागों के अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

पुलिस लाइन सभागार में एएसपी ने पुलिस पेंशनर्स के साथ की मीटिंग

बांदा। अपर पुलिस अधीक्षक बांदा शिवराज द्वारा पुलिस लाइन सभागार में पुलिस पेंशनर्स के साथ मीटिंग की गई । मीटिंग में पुलिस पेंशनर्स की पेंशन, चिकित्सा सुविधाएं, पारिवारिक पेंशन, लंबित प्रकरणों एवं अन्य व्यक्तिगत एवं विभागीय समस्याओं को गम्भीरतापूर्वक सुना गया और संबंधित शाखाओं/अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए तथा पेंशनर्स को आश्वस्त किया गया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा तथा अनावश्यक विलंब नहीं होने दिया जाएगा । साथ ही पेंशनर्स की सराहना करते हुए बताया गया कि उनके द्वारा अपने सेवाकाल में पुलिस विभाग के लिए निष्ठा एवं समर्पण के साथ किए गए कार्य किए गए है इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान करना विभाग का नैतिक एवं प्रशासनिक दायित्व है । पेंशनर्स के सम्मान, सुविधा एवं कल्याण के लिए पुलिस प्रशासन सदैव प्रतिबद्ध है ।

उत्तर रेलवे

ई–निविदा सूचना

मुख्य कारखाना प्रबंधक, सवारी डिब्बा कारखाना, आलमबाग, लखनऊ निम्न कार्य के लिए ई– निविदा आमंत्रित करते हैं।

1	कार्य का नाम	कन्वर्शन ऑफ हाइब्रिड कोचेस इनटू ऑटोमोबाइल करिएर कम ब्रेक वैन एस०एन०एम०जी०एच०एस०आर०।
2	कार्यस्थल	सवारी डिब्बा कारखाना, आलमबाग, लखनऊ
3	अनुमानित लागत	रु० 4,82,14,672.50 मात्र।
4	निविदा प्रपत्र का मूल्य	शून्य।
5	बिड सिक्युरिटी	रु० 3,91,100/– मात्र।
6	कार्य पूर्ण करने की अवधि	01 वर्ष।
7	निविदा जमा करने की तिथि एवं समय	दिनॉक– 12.01.2026 समय 15:00 बजे तक।
8	प्रमाणपत्र	फर्म के सभी Members द्वारा ANNEXURE-A (यदि Company/ Proprietorship फर्म है) के साथ Annexure-A(a) (यदि Partnership/ HUF/JV/LLP फर्म है) के अनुरूप प्रमाणपत्र अवश्य अपलोड किया जाना चाहिए।
9	खुलने का समय	निविदा फार्म जमा होने के पश्चात निविदा को किसी भी समय खोला जायेगा । निविदाकर्ताओं को निविदा खुलने के दौरान उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है ।
10	कार्यालय जहां से निविदा प्रपत्र क्रय किया जा सकता है।	निविदा सूचना एवं प्रपत्र का पूर्ण विवरण नियम व शर्तों सहित वेबसाइट– www.ireps.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
11	वेबसाइट विवरण जहां निविदा का पूरा विवरण आदि देखा जा सकता है।	

सं. 2025–ए.एम.वी.–सी एंड डब्लू ईनिविदा–71 दिनांक: 20.12.2025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 3963/25

उत्तर रेलवे

शुद्धिपत्र

निविदा सं. 56256233 जो कि एकल स्वामित्व वस्तु प्रमाणपत्र (PAC) पर आधारित निविदा है जिसे दिनांक 10.01.2026 को खुलने की तिथि के साथ दिनांक 20.12.2025 के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा चुका है।

निविदा सं.	संक्षिप्त विवरण:
56256233	1. यह एक एकल स्वामित्व वस्तु प्रमाणपत्र निविदा है। 2. निविदा खुलने की तिथि दिनांक 10.01.2026 से 26.12.2025 कर दी गई है।

पत्र सं.: स्था०क्रय/एन०एस०/चारबाग/56256233 दिनांक 22.12.2025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 3960/2025

श्रावस्ती में बाल विवाह उन्मूलन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ

सतीश कुमार पाठक श्रावस्ती। महिला कल्याण विभाग, श्रावस्ती एवं एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (नीति आयोग) के तत्वाधान में जनपद श्रावस्ती में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक जमुनहा के खंड विकास अधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को बाल विवाह न करने और इसे रोकने की शपथ दिलाई गई। जागरूकता अभियान के तहत ब्लॉक जमुनहा क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मणपुर, गंगापुर, गजोबरी, भरथा, कानीबोझी, प्रतापपुर, मलंगांव, मल्हीपुर खुर्द सहित अन्य गांवों में जनसंपर्क एवं प्रचार–प्रसार किया गया।

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों, इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों तथा बच्चों के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे इस सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अभियान में देहात इंडिया संस्था से सारजन वर्मा, सरोज देवी, श्रीपाल एवं सरोज पटेल की महत्वपूर्ण सहभागिता रही। सभी ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त भविष्य प्रदान करना तथा जनपद श्रावस्ती को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाना है

थाना सिंधौली पुलिस ने दो वांछित अभियुक्तकिए गिरफ्तार

शाहजहाँपुर। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिंधौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सिंधौली के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 19 दिसंबर 2025 को प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंधौली में मु0अ0सं0 484/25 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रियांशू तिवारी पुत्र रामबहादुर (उम्र लगभग 22 वर्ष) एवं पुष्कर शुक्ला पुत्र हरिराम (उम्र लगभग 23 वर्ष), निवासीगण ग्राम महुआ पाठक, थाना सिंधौली को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 23 दिसंबर 2025 को समय करी पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक अजीत सिंह, कांस्टेबल 2540 गौरव चौधरी एवं कांस्टेबल 2650 सचिन रावल शामिल रहे।

शिक्षा के नाम पर शोषण बर्दाश्त नहीं

शाहजहांपुर। निजी विद्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष फीस में मनमानी वृद्धि, बार–बार यूनिफॉर्म बदलने और पुस्तकों को किसी विशेष दुकान अथवा स्कूल से ही खरीदने के दबाव को लेकर अभिभावकों की लगातार मिल रही शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध निजी विद्यालयों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि अब कोई भी निजी विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक फीस वृद्धि नहीं करेगा। यदि किसी विद्यालय द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि बिना जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के पिछले वर्ष प्रयोग में लाई गई यूनिफॉर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ताकि अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े।

जिला प्रशासन ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिए कि वे आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रयोग होने वाली पुस्तकों की पूरी सूचीकृपुस्तक का नाम, लेखक एवं प्रकाशक सहितकृदिनांक 31 जनवरी 2026 तक अपनी–अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें। इसका उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी और उनके अभिभावक पुस्तकें अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दुकान से खरीद सकें और किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए बाध्य न हों। बैठक में यह सहमति भी बनी कि विद्यालय विगत वर्ष के विद्यार्थियों से उपयोगी पुस्तकों को एकत्र कर जरूरतमंद छात्रों को उपलब्ध कराएंगे, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सीधा लाभ मिल सके। जिलाधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि शासन और जिला प्रशासन का उद्देश्य शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार का शोषण रोकना है। आगामी शैक्षणिक सत्र में किसी भी विद्यार्थी अथवा अभिभावक पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव नहीं डाला जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन निर्णयों से निजी विद्यालयों की मनमानी पर प्रभावी अंकुश लगेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तथा अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी।

उत्तर रेलवे

खुली निविदा सूचना (ई–निविदा)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेलवे प्रबंधक (इंजीनियरिंग), उत्तर रेलवे, लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु सिंगल पैकेट पद्धति से ई–निविदा प्रणाली द्वारा जिसकी अंतिम निविदा तिथि दिनांक 14.01.2026 को 15:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। इस निविदा के मैनुवल ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेगें, यदि कोई मैनुवल ऑफर आता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा फार्म का मूल्य जमा नहीं करना है तथा निविदाकर्ता को धरोहर राशि का भुगतान केवल IREPS पोर्टल पर उपलब्ध आनलाईन भुगतान प्रणाली में नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि द्वारा करेगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, डिपॉजिट रसीद एवं एफ डी आर द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

	निविदा सूचना संख्या	01342025 दिनांक 23.12.2025
1	कार्य का नाम	1. वरि. मण्डल अभियन्ता-तृतीय/उ.रे./लख. के अधीन वाराणसी-जफराबाद-अकबरपुर खण्ड में समपार सं. 20-ए., 21-सी., 31-सी. तथा 56-सी. को बन्द करने हेतु अधोगामी पुल का प्रावधान। (दोहरी पैकेट पद्धति) 2. वाराणसी स्टेशन पर दिव्यांग सुविधाओं में बढ़ोत्तरी, प्रतीक्षालय, शौचालय ब्लाक, पानी का कूलर, पानी का बूथ तथा प्लेटफॉर्म शेड के विस्तार इत्यादि के साथ यात्री सुविधा को बढ़ाने का कार्य। (सिंगल पैकेट पद्धति)
2	अनुमानित लागत	1. रु. 19,04,89,912.16 2. रु. 7,28,77,059.13
3	धरोहर राशि	1. रु. 11,02,500.00 2. रु. 5,14,400.00
4	कार्य की समापन अवधि	क्रम सं. 01 तथा 02 के लिए : स्वीकृत पत्र जारी करने की तिथि से बारह (12) माह।
5	निविदा डालने का प्रारंभ	क्रम सं. 01 तथा 02 के लिए : 31.12.2025
6	निविदा बंद होने की तिथि एवं समय	क्रम सं. 01 तथा 02 के लिए : 14.01.2026 15:00 बजे
7	वेबसाइट	www.ireps.gov.in

नोट : तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों के खुलने के बाद अतिरिक्त दस्तावेज की प्रस्तुति एवं उससे सम्बन्धित निविदा उपरान्त किसी प्रकार के पत्राचार स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निविदादाता के निविदा उपरान्त पत्रों को भी शून्य एवं प्रभावहीन माना जायेगा। (प्रधान कार्यालय उ.रे. नयी दिल्ली का पत्र सं. 74-W/O/Pt.XXV/WA/Loose दिनाँक 07.04.2015)

3971/25

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

किसान सम्मान दिवस पर प्रगतिशील कृषकों का हुआ सम्मान

शाहजहाँपुर, 23 दिसंबर 2025। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के अंतर्गत गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर में किसान मेला/किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने की। कार्यक्रम का शुभारम्भ जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता यादव, जिलाध्यक्ष भाजपा के0सी0 मिश्रा, महानगर भाजपा अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, जिला सहकारी बैंक चेयरमैन डी0पी0एस0 राठौर द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। अतिथियों ने गन्ना शोध परिषद में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा लाभार्थियों को कृषि यंत्रों की चाबियाँ वितरित कीं। जिलाधिकारी ने कहा कि किसान सम्मान दिवस पर प्रगतिशील कृषकों को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा जाता है। उन्होंने पराली न जलाने, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने, सड़क सुरक्षा के तहत हेलमेट पहनने तथा गन्ना लदी ट्रालियों में रिफ्लेक्टर व लाल कपड़ा लगाने की अपील की। साथ ही विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत 26 दिसंबर तक गणना प्रपत्र बीएलओ के पास जमा करने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा लगभग 85 प्रगतिशील किसानों को शॉल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों व कर्मचारियों को भी सम्मान मिला। कृषि विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी दी और किसानों को लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। गन्ना शोध परिषद व केवीके के वैज्ञानिकों ने मिलेट्स, आधुनिक तकनीक एवं ऑर्गेनिक खेती पर विस्तृत जानकारी दी। प्रगतिशील कृषक निर्मल सिंह ने ड्रैगन फ्रूट की खेती, फसल बीमा एवं जैविक खेती के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का संचालन इन्दु अजनबी ने किया तथा जिला कृषि अधिकारी ने सभी अतिथियों व किसान भाइयों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया।

पूरनपुर तहसील बना रणक्षेत्र, अधिवक्ता और क्लाइंट में मारपीट, बीच बचाव करती रही पुलिस

पीलीभीत। मंगलवार को पूरनपुर तहसील मुख्यालय कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता नजर आया। दोपहर करीब ढाई बजे तहसील परिसर उस समय रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जब एक युवक और अधिवक्ता के बीच हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते जमकर हाथापाई में बदल गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, संहरामऊ उत्तरी क्षेत्र का एक युवक किसी कार्य से तहसील पहुंचा था। इसी दौरान उसकी एक अधिवक्ता से बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों खुलेआम एक–दूसरे पर टूट पड़े। एसडीएम कार्यालय के ठीक बाहर जमकर लात–घूंसे चले, जिससे तहसील परिसर में मौजूद फरियादियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि तहसील जैसे संवेदनशील और न्यायिक स्थल पर लोग बेखौफ होकर कानून को हाथ में ले रहे हैं। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मौजूद क्राइम इंस्पेक्टर अशोक कुमार और अन्य पुलिसकर्मी झगड़ा शांत कराने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनके सामने ही काफी देर तक मारपीट होती रही।

बताया जा रहा है कि कुछ घंटे पहले ही अधिवक्ताओं और विद्युत कर्मचारियों के बीच विवाद की सूचना पर पुलिस तहसील पहुंची थी। इसके बावजूद उसी दिन दो बार मारपीट की घटनाओं ने तहसील को विवादों का अखाड़ा बना दिया। घटना के समय तहसील परिसर में बड़ी संख्या में फरियादी मौजूद थे। मारपीट के चलते कामकाज ठप हो गया और लोगों में भय का माहौल बन गया। आमजन का कहना है कि तहसील परिसर में पहले भी विवाद होते रहे हैं, लेकिन दिनदहाड़े मारपीट का वीडियो सामने आना बेहद शर्मनाक और चिंताजनक है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर दोनों पक्षों की पहचान की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अधिवक्ताओं और आम नागरिकों ने तहसील परिसर में स्थायी पुलिस बल तैनात करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि तहसील जैसे न्यायिक स्थल की गरिमा को बचाया जा सके। एसडीएम अजीत प्रताप सिंह ने बताया अधिवक्ता और क्लाइंट के चीच विवाद हुआ है। क्राइम इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया बच्चों के बीच झगड़ा हुआ है।

श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर कंस वध तक का हुआ वर्णन

संवाददाता,

बजरंगी प्रसाद चौधरी सिद्धार्थ नगर जिले में डुमरियागंज ।क्षेत्र के चौखड़ा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति में कथा वाचक प्रेम शरण जी महराज ने भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन किया।प्रेम शरण जी महराज ने नंदगांव और वृंदावन में श्रीकृष्ण द्वारा की गई लीलाओं की कथा में पूतना वध, शकटासुर, तृणावर्त, कालिया नाग पर विजय, गोवर्धन पूजा और ग्वाल–बालों संग बाल्यकाल की चंचल घटनाओं को विस्तारपूर्वक सुनाया।कथा वाचक ने बताया कि कैसे भगवान ने बाल रूप में ही अधर्म के प्रतीक कंस का अंत कर धर्म की स्थापना की। कंस वध की कथा को लोगों ने काफी प्रेम से सुना । कथावाचक ने कहा कि जब भी पृथ्वी पर धर्म होता है अत्याचार बढ़ता है नारायण अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। उन्होंने कहा कि कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण कर मनुष्य भवसागर पार कर लेते हैं।इस दौरान मुख्य यजमान कंचना सिंह,अनिल कुमार सिंह, गोपाल जी सिंह, हरि सिंह ,अरुण कुमार सिंह ,मनोज कुमार सिंह, संजीव सिंह, पप्पू सिंह, राजन दुबे, विनोद मिश्रौलिया, शिव मुकुंद सिंह,रामेंद्र सिंह, विजय विश्वकर्मा , उमेश सिंह,शिवराम सिंह, रविंद्र सिंह, , बबलू सिंह, श्याम जी सिंह, महेंद्र बहादुर पाल , पप्पू सिंह, छोटे सिंह, मंगल मोदनवाल, पप्पू मोदनवाल, भारत यादव, रामानंद यादव, गोपाल अर्कवंशी,भारद्वाज त्रिपाठी,इंद्रप्रकाश सिंह,खन्नू सिंह, बंसी सिंह,सुनील सिंह,विकास,कुंवर सिंह ,वैभव सिंह,, जनता गुप्ता,सोनू, अभय सिंह,अमरेश सिंह ठाकुर प्रसाद मिश्रा सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

नगर निगम में जन सुनवाई दिवस, 10 शिकायतें दर्ज

शाहजहांपुर/नगर निगम, में मेरा शहरदृमेरा घर अभियान के अंतर्गत दिनांक 23 दिसम्बर 2025 (मंगलवार) को नगर आयुक्त डॉ. बिपिन कुमार मिश्र की अध्यक्षता में जन सुनवाई दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नगर निगम कार्यालय में सम्पन्न हुआ। जन सुनवाई में नगर क्षेत्र के नागरिकों ने साफ–सफाई, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, नाली निर्माण तथा कर विभाग से संबंधित समस्याएं व शिकायतें प्रस्तुत कीं। नगर आयुक्त ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं संतोषजनक निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई दिवस में कुल 10 समस्याएं/शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 2 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। कार्यक्रम में अपर नगर आयुक्त एस.के. सिंह, संयुक्त नगर आयुक्त संगीता कुमारी, सहायक नगर आयुक्त राजकुमार गुप्ता व तरुण प्रताप सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार मिश्रा, महाप्रबंधक जल विजय नारायण मौर्य, अधिशासी अभियंता सिविल दिलीप कुमार गुप्ता सहित अन्य अधिकारी–कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

यूपी विधानसभा सत्र, अध्यक्ष सतीश महाना बोले- सदन में आरोप लगाने से पहले सभी सदस्य दें शपथ पत्र

लखनऊ,23 दिसम्बर 2025 (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विपक्ष और सत्तापक्ष के सदस्यों से कहा कि किसी पर आरोप लगाने से पहले उनके समक्ष शपथ पत्र भेजें। समाजवादी पार्टी (सपा) के एक सदस्य ने चीनी मांझे से होने वाले हादसों से संबंधित प्रश्न के लिखित उत्तर से असंतोष जाहिर करते हुए सरकार पर गलत सूचना देने का आरोप लगाया। प्रश्नकाल समाप्त हो जाने की वजह से पूरक प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिलने पर सपा के वरिष्ठ सदस्य रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि सरकार ने उनके प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया है। उनके इस आरोप पर प्रतिरोध करते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार ने सही जवाब दिया है। इस बीच सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह परंपरा बन गई है कि जब मंत्रीगण जवाब देते हैं तो सीधा जवाब न देकर पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हैं। नियम है कि किसी के ऊपर आरोप लगाने पर सबूत होने चाहिए। यह परिपाटी बंद कराइए, अन्यथा हम लोग उसी समय विरोध करेंगे। पांडेय ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह द्वारा शिक्षा से जुड़े एक प्रश्घ्न पर दिये गये जवाब को लेकर आपत्ति की थी। खन्ना ने कहा कि मंत्री ने किसी दल का नाम नहीं लिया और पिछली सरकारों की बात की है। इस वाद–विवाद के बीच व्यवस्था देते हुए अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, मैं सभी सदस्यों से कहूंगा, आरोप लगाने से पहले शपथ पत्र मेरे टेबल पर भेज दें। यह सदन के सभी 403 सदस्यों पर लागू होगा। यह प्रश्न पूछने वाले और सरकार के ऊपर भी लागू होगा। कोई भी सदस्य प्रश्न पूछे तो या तो उसे प्रमाणित करेगा, तभी पूछा जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष पांडेय ने इस पर आपत्ति की तो महाना ने कहा कि ''अब आप पलट गए''। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को तीसरे दिन हाल में दिवंगत पांच पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पूर्व विधायक पूर्णमासी पंकज (भदोही), याद अली (प्रतापगढ़) सैयद अली अशरफी (पीलीभीत), राम सिंह एडवोकेट (मैनपुरी) और लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (चित्रकूट) के हाल में निधन होने की जानकारी सदन को दी और उनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला। महाना ने कहा कि पूर्व सदस्यों के निधन से पूरा सदन शोकाकुल है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह सदन की ओर से ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति देने की कामना करते हैं। इसके बाद सदन ने दो मिनट का मौन रखा गया। महाना ने कहा कि सभी पूर्व सदस्यों के घर सदन की ओर से दी गई श्रद्धांजलि और शोक संवेदना प्रेषित की जाएगी।

पारिवारिक दलों का गठबंधन है अखिलेश का पीडीए : पंकज चौधरी

लखनऊ,23 दिसम्बर 2025 (यूएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनका पीडीए का मंत्र परिवारवाद गठबंधन से ज़्यादा कुछ नहीं है। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को देश की राजनीति का केंद्र बताते हुए कहा कि उनके पास 35 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है और वह सभी को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं और आगे भी उनके सम्मान व हितों के लिए निरंतर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को अटल शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। इसी दिन से 31 दिसंबर तक प्रदेश भर में सुशासन दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी विधानसभाओं में अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पंकज चौधरी ने कहा कि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे, जबकि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी और सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और सभी को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पीडीए का अर्थ पारिवारिक दलों का गठबंधन है, जिसका स्वरूप उत्तर प्रदेश के साथ–साथ अन्य राज्यों में भी देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले कल्याण सिंह और वर्तमान में नरेंद्र मोदी को बड़ी जिम्मेदारियां दीं, जो इस बात का प्रमाण है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं और नेताओं का सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही ऐसा संगठन है जहां लोकतंत्र पूरी तरह कायम है। आवश्यकता के अनुसार टीम का गठन किया जाता है और पार्टी की जरूरतों के मुताबिक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जाती हैं। उन्होंने दोहराया कि भाजपा का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास है और इसी सिद्धांत के तहत काम किया जाता है। पार्टी किसी एक क्षेत्र को मजबूत करने के बजाय पूरे प्रदेश और देश के संतुलित विकास पर ध्यान देती है।

वृक्षारोपण व अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक

जौनपुर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति एवं जिला गंगा समिति की संयुक्त बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में कराए गए वृक्षारोपण कार्यों की प्रगति, पौधों की जीवितता प्रतिशत रिपोर्ट की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि वृक्षारोपण के बाद पौधों की नियमित देखरेख सुनिश्चित की जाए तथा जियो टैगिंग के माध्यम से उनकी निगरानी की जाए, जिससे लगाए गए पौधों की वास्तविक स्थिति का सही आकलन हो सके। इसके साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट, कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन वेस्ट, ई–वेस्ट तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के समुचित निस्तारण पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को अपशिष्ट प्रबंधन को सुनियोजित और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए, ताकि स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जनजीवन को बढ़ावा मिल सके। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट, प्रभागीय वनाधिकारी प्रोमिला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा थाना साइबर क्राइम ललितपुर का आकस्मिक निरीक्षण कर सम्बंधित को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

ललितपुर दिनांक 23.12.2025 को पुलिस अधीक्षक ललितपुर मो0 मुश्ताक द्वारा थाना साइबर क्राइम ललितपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर कार्यालय आदि का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये । थाना कार्यालय/साइबर हेल्प डेस्क के रजिस्टरों को चेक कर व्यवस्थित रखरखाव हेतु निर्देश दिये गये । सही रखरखाव नियमित साफ–सफाई रखने हेतु निर्देशित किया गया । साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के खातों से धोखाधड़ीपूर्वक निकाली गई धनराशि से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल प्रभाव से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही जैसे बैंक खातों में डेविट फ्रीज कराना बैंक व अन्य वित्तीय एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर धोखाधड़ी हुयी धनराशि को पीड़ित के बैंक खाते में वापस कराया जा सके थ्तंनकमक ।उवनदज को स्पमद करने के लिये अपनायी जाने वाली ैव्च् के अनुसार वित्तीय धोखाधड़ी के प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जा सके । स्पमद ।उवनदज की प्रतिशतता में गुणोत्तर वृद्धि करने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दिये गये । च्ब्(च्वपदज वॅसिम) के सम्बन्ध में डभ्। द्वारा निर्धारित की गयीं ैव्च् का अक्षरशः अनुपालन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।डवइपसम के सम्बन्ध में निर्धारित ैव्च् का अनुपालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।प्दजमतपउ बवउचसंपदजे व त्मेंपहद तमुनमेजे के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर निर्देशित किया गया कि इस प्रकार की शिकायतों का त्वरित रूप से संज्ञान लेकर सम्बन्धित पोर्टल पर आवश्यक डाटा का भरना/अपलोड़ करना सुनिश्चित करें जिससे कि उक्त शिकायत का उचित व प्रभावी रूप से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित हो सके । डभ्। द्वारा संचालित प्रतिबिम्ब पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों/डिटेल्स का भौतिक रूप से सत्यापन करना सुनिश्चित करेंजिससे कि जनपद के साइबर अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा सके तथा साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके । समन्वय पोर्टल पर प्राप्त नोटिस/सम्मन की तामीला भौतिक रूप से करना सुनिश्चित करें जिससे कि जनपद के साइबर अपराधियों के विषय में मूलभूत जानकारी प्राप्त की जा सके तथा उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जा सके । इसके अतिरिक्त छब्त्च् पोर्टल ब्म्प् पोर्टल आदि पोर्टलों का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने तथा प्राप्त तकनीकी डाटा का तार्किक रूप से अवलोकन व विश्लेषण करते हुए साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । महिला सम्बन्धी अपराधों को रोकने के लिये सूचना पर त्वरित रूप से संज्ञान लेकर तत्काल विधिक कार्यवाही कर उनका निस्तारण करें तथा उपरोक्त प्रकरण की सूचना पर उच्चाधिकारियों को देने हेतु निर्देशित किया गया ।

आरबीएसके टीम की तत्परता से बची मासूम की ज़िंदगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से पीड़ित बच्ची का सफल ऑपरेशन

जसपुरा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत जसपुरा ब्लॉक की आरबीएसके टीम ने संवेदनशीलता, समन्वय और त्वरित कार्रवाई का उदाहरण पेश करते हुए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से पीड़ित एक बच्ची को नया जीवन दिया है। टीम के इस सराहनीय प्रयास की क्षेत्र में व्यापक प्रशंसा हो रही है। बीते 5 दिसंबर 2025 को प्राथमिक विद्यालय नरौली में आयोजित नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान 7 वर्षीय जान्हवी, पुत्री मनोज, में गंभीर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की पहचान की गई। जांच के बाद आरबीएसके टीम ने बिना विलंब किए बच्ची को उच्च चिकित्सा उपचार के लिए संदर्भित किया।आरबीएसके टीम के चिकित्सक डॉ. अंकुर अवस्थी ने बताया कि बच्ची के परिजनों को बीमारी की स्थिति, संभावित उपचार और सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। परिजनों की सहमति मिलने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बांदा द्वारा बच्ची के निःशुल्क उपचार की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके उपरांत बच्ची को वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झांसी भेजा गया, जहां 22 दिसंबर 2025 को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा उसका सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद बच्ची की हालत में निरंतर सुधार हो रहा है और परिजन राहत महसूस कर रहे हैं। इस मानवीय प्रयास में अवधेश कुमार एवं लोकेन्द्र मधुपिया का विशेष योगदान रहा, जिनके सहयोग और समन्वय से बच्ची को समय पर जीवनरक्षक उपचार मिल सका।आरबीएसके कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे ऐसे प्रयास यह सिद्ध करते हैं कि समय पर जांच और सही मार्गदर्शन से गंभीर बीमारियों से भी बच्चों को सुरक्षित भविष्य दिया जा सकता है। यह सफलता स्वास्थ्य विभाग की प्रतिबद्धता और सेवा भावना का प्रेरक उदाहरण है।

किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस

डीएम ने 36 प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित

संवाददाता **पब्लिक की लहर** लखीमपुर खीरी। भूतपूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती किसान सम्मान दिवस के रूप में उत्साह, उल्लास, उमंग से मनाई गई। आईटीआई राजापुर में आडिटोरियम कम मल्टीपरपज हॉल में आयोजित किसान सम्मान समारोह का डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने दीप जलाकर एवं भारत रत्न पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्पार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने जिले के 36 अन्नदाताओं को प्रशस्ति पत्र व शाल भेंट किया। कार्यक्रम का सफल संयोजन डीडी कृषि गिरीश चंद्र ने किया। इससे पूर्व डीएम ने आईटीआई कैंपस में कृषि, कृषि रक्षा, उद्यान, गन्ना, पशुपालन, रेशम और उनसे संबंधित विभिन्न सेक्टरों द्वारा लगाए स्टॉलों का अवलोकन किया। विभागीय अधिकारियों ने किसानों को योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर डीएम ने ब्लॉक लखीमपुर की एफपीओ चितन प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर कृषक विद्यासागर को टैक्टर (फॉर्म मशीनरी बैंक) की चाबी सौंपी और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बेलर मॉडल का अवलोकन कर कृषक रमनदीप से संवाद किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने चौधरी चरण सिंह के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। देश में सर्वमान्य किसान नेता के रूप में उनकी पहचान है और आज भी उनका नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने कहा कि मा. मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। डीएम ने किसानों को चौधरी चरण सिंह की जन्मजयंती व किसान सम्मान दिवस की शुभकामनाएं दी और संगठित खेती व सहकारिता से जुड़कर तरक्की के रास्ते अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने फार्मर आईडी की उपयोगिता बताई और किसानों से इस वर्ष अपने उत्पादन की कीर्तिमानों को तोड़ने का आह्वान किया। 'बड़े हर्ष का विषय है कि आज के इस कार्यक्रम में समाज और कृषि क्षेत्र में नई मिसाल पेश करने वाली 09 प्रगतिशील कृषक महिलाओं को सम्मानित किया गया। इन महिलाओं ने अपने मेहनत और योगदान से समाज और खेती के क्षेत्र में प्रेरणा दी है।

डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कृषि, उद्यान, गन्ना एवं पशुपालन सेक्टर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 36 प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया।

प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले किसानों को 7–7 हजार और द्वितीय स्थान पर रहने वालों को 5–5 हजार की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से उनके खातों में भेजी जा रही है। इस अवसर पर अधिकारियों ने भी मौजूदगी देते हुए किसानों की उपलब्धियों की सराहना की। इसी के साथ सभी विकासखंडों से पांच पांच प्रगतिशील कृषकों को भी सम्मानित किया गया।

उद्यानिकी:' केला में सुभाष चंद्र ने 1060 कुंतल उत्पादन कर प्रथम और जगदीश प्रसाद ने 1020 कुंतल के साथ द्वितीय स्थान हासिल किया। हरी मिर्च में रामपाल 97 कुंतल और समलिया प्रसाद 95 कुंतल उत्पादन कर क्रमशः प्रथम–द्वितीय रहे। आलू में गुरुदत्त सिंह 540 कुंतल व सुखदेव सिंह 525 कुंतल उत्पादन कर सम्मानित हुए।

गन्ना: COLK–14201 पौध से 1484 कुंतल उत्पादन कर जसनप्रीत सिंह, COS–13225 से 1296 कुंतल उत्पादन कर राहुल सोनी और COLK–9709 से 1262 कुंतल उत्पादन कर दिलीप सिंह प्रथम स्थान पर रहे। CO–98014, CO–0118 और CO–15023 पौध से कुलदीप, हरमिंदर और महेश द्वितीय स्थान पर रहे।

पशुपालन: भैंस पालन में तरसेम सिंह ने 95 लीटर, जय राम ने 80 लीटर और गाय पालन में सत्य प्रकाश ने 50 लीटर उत्पादन कर प्रथम स्थान हासिल किया। बकरी पालन में मनोरमा और गाय–भैंस पालन में सुखेंद्र व विशाल कुमार ने द्वितीय स्थान अर्जित किया।

कृषि: धान में वीरेंद्र कुमार 70.40 कुंतल/हे और आदित्य कुमार 66.80 कुंतल/हे, उर्द में राम ओतार 16 कुं./हे व श्रीराम 15 कुं./हे, गेहूं में राजकुमार सिंह 64 कुं./हे व संतोष कुमारी 62.50 कुं./हे, सरसों में नरेंद्र कुमार वर्मा 20.80 कुं./हे व रामरतन 20 कुं./हे, रागी में त्रिलोचन सिंह 20 कुं./हे व सतविंदर सिंह 19 कुं./हे, सावा में सुखेंद्र कुमार 16 कुं./हे व कमलेश कुमार 12 कुं./हे, कोदो में दिग्विजय पाल 18 कुं./हे व विनोद कुमार 16 कुं./हे, बाजरा में रामनरेश 20 कुं./हे व लियाकत अली 18.50 कुं./हे, संकर ज्वार में श्यामनाथ यादव 35 कुं./हे व पलविंदर कुमार 22.40 कुं./हे ने क्रमशः प्रथम–द्वितीय स्थान हासिल किया।

डीएम-एसपी ने अफसरों संग की हाईलेवल सड़क सुरक्षा बैठक

डीएम ने ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग और ओवरहाइट वाहनों पर शिकंजा कसने के दिए निर्देश

लखीमपुर खीरी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने, यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार को विकास भवन स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी संकल्प शर्मा ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। बैठक का संयोजन, संचालन पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड (तृतीय) के अधिशाषी अभियंता अनिल कुमार यादव ने किया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने सड़क सुरक्षा के मद्देनज़र ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, ओवरहाइटिंग, सीटबेल्ट, हेलमेट की नियमित निगरानी करने पर ज़ोर दिया। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर चालान किए जाएं। बैठक में अब तक किए गए चालानों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। ए आर टी ओ शांति भूषण पांडेय ने बताया की प्रवर्तन की कार्यवाही निरंतर की जा रही है.जिले में जहां पर घुमावदार स्थान तथा ब्लाइंड स्पॉट है, वहां से सौ मीटर पूर्व में साइनेज लगाने के दिशा निर्देश दिया। चीनी मिलो पर वाहन प्रबंधन हेतु गन्ना अधिकारी एवं चीनी मिल प्रबंधन को निर्देशित किया।डीएम ने सभी चीनी मिल प्रबंधन को निर्देशित किया कि गन्ना वाहनों पर शत प्रतिशत लाल कपड़ा और टेप लगवाए जाएं। उन्होंने कहा कि मिलें ग्राम स्तर पर किसानों को जागरूक करें और सामग्री का वितरण सुनिश्चित करें। इसके लिए माइक्रो प्लानिंग बनाकर जमीन पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

सड़कों की सुरक्षा और विजिबिलिटी बनाए रखने के लिए डीएम ने जिले भर की सड़क किनारी उगने वाली घास साफ करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही विद्युत विभाग को सैगिंग केबल की मरम्मत के लिए भी सक्रिय रहने को कहा गया। अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। डीएम ने स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब के क्रियान्वयन, एनसीसी और स्काउट गाइड के जागरूकता अभियानों और "नो हेलमेट नो फ्यूल" के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। उन्होंने संबंधित विभागों से एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।बैठक में सड़क दुर्घटना विश्लेषण, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान, स्कूली वाहनों के मानक, सड़क मरम्मत, ड्रेनेज वर्क, पुल–तटबंध की सुरक्षा, वाहन प्रबंधन, शहरी चौराहों पर अतिक्रमण और सड़क सुरक्षा मित्र एवं राजवीर योजना के प्रचार–प्रसार की पर भी विस्तृत चर्चा हुई।मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रशासनिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से ट्रामा की व्यवस्था सुदृढ़ करने, वल्नरेबल पॉइंट से हॉस्पिटल्स को मैप करने हेतु निर्देशित किया।साथ ही सीएमओ को एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को इम्प्रूव करने हेतु निर्देशित किया गया।

महिला को पीटने के आरोपियों की नहीं हुई गिरफ्तारी

बांदा।तिंदवारी थाना क्षेत्र के कबीरनगर निवासी महिला को पानी भरने के विवाद में महिला को बेरहमी से पीट दिया। जिससे महिला को गंभीर चोंटे आयीं। पीड़िता की तहरीर पर दो लोगों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कोई कार्यवाही ने होने पर पीड़िता ने उच्चाधिकारियों से मामले की जांच कर कार्यवाही की मांग की है। वहीं पीड़ित महिला ने आरोपियों पर उसकी हंसी उड़ाने व चिढ़ाने का भी आरोप लगाया है।जानकारी के अनुसार तिंदवारी थाना क्षेत्र के कबीरनगर निवासी महिला मुन्नी देवी पुत्री शिवचरन ने बताया कि 9 दिसंबर को सुबह वह अपने घर के बाहर लगे नल में पानी भरने गयी थी। तभी बगल की ही सुनीता पत्नी रक्षा, मंजू पुत्र रत्ना आयी और पानी भरने से मना करने पर गाली–गलौज करते हुए लाठी–डंडों से मारपीट कर दी। जिससे महिला को गंभीर चोंटे आयीं। पीड़िता के तहरीर पर पुलिस ने सुनीता पत्नी रत्ना व मंजू पुत्री रत्ना के खिलाफ तिंदवारी थाने में 115/2,352 व 351/3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

331 छात्रों एवं 168 अभिभावकों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

शुगर,बीपी, बुखार एवं आंखों के मरीजों की संख्या रही सर्वाधिक

संवाददाता **पब्लिक की लहर**

तुर्कपट्टी।फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र के जनपदीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय रुदवलिया में मंगलवार को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न रोगों से पीड़ित करीब 499 छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों का इलाज किया गया।उक्त शिविर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फाजिलनगर द्वारा आयोजित किया गया है।

स्वास्थ्य परीक्षण में चिकित्सकों द्वारा कुछ जन्मजात दोष,विटामिन की कमी से होने वाले रोग,बच्चों में उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक व मानसिक विकास,हाइजिन की समस्या एवं सहित अन्य बीमारियों जैसे त्वचा रोग, नेत्र रोग,दांतों में सड़न,एनीमिया,बुखार,खांसी जैसे रोगों की विधिवत जाँच की गयी।स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही संक्रमित बच्चों को कुछ आवश्यक दवाएं दी गईं।चिकित्सकों ने छात्रों को गंभीर रूप से बीमार होने की दशा मे फाजिलनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आकर समुचित इलाज कराने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे अभिभावकों के स्वास्थ की भी विधिवत जांच करके आवश्यक दवाएं वितरित की गईं। डाक्टर भूपेंद्र कुमार, डॉ पूनम गुप्ता, डॉ अरविंद के अनुसार आंख की बीमारी से जुड़े 69 मरीजों में से 16 मरीज की आंखों में मोतियाबिंद पाया गया जिसके लिए उन्हें मेडिकल कॉलेज पडरौना रेफर किया गया। इसी प्रकार दांत के 27 मरीजों में कैविटी,सड़न एवं दर्द की समस्या पाई गई। 31 महिलाओं में ल्यूकोरिया एवं हाइजिन समस्या तथा

84 मरीजों के शुगर,ब्लड ग्रुप की जांच की गई तथा

अन्य 272 मरीजों में बीपी शुगर,बुखार,खांसी एवं घुटने,कंधे की दर्द की समस्या पाई गई।

मेडिकल टीम ने छात्र–छात्राओं एवं अभिभावकों को मौसमी बीमारियों और अन्य संक्रामक रोगों से बचने के लिए स्वच्छता एवं संतुलित आहार के साथ–साथ शारीरिक सक्रियता बनाये रखने व नियमित व्यायाम करने का भी सुझाव दिया गया।इस दौरान डॉ आफताब आलम, डॉ बदरूद्दीन,फार्मासिस्ट रूद्र प्रताप सिंह, अमन कुमार, अनुज कुमार, आदित्य त्रिपाठी,कमरूल अंसारी, झुन्नू अंसारी,अर्जुन कुशवाहा,नंदकिशोर खरवार आदि स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।

दो दिवसीय जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का लालपुर स्टेडियम के प्रांगण में हुआ आयोजन

ट्रेनी आईएएस ने डीआईओएस व बीएसए संग खेल ध्वज फहराकर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ

प्रथम दिन बच्चों ने 18 इवेंट्स में किया प्रतिभाग, दिखाया दमखम, जीते पुरस्कार

लखीमपुर। मंगलवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी के नेतृत्व में लालपुर स्टेडियम के प्रांगण में दो दिवसीय जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ट्रेनी आईएएस मनीषा धार्वे व डीआईओएस विनोद कुमार मिश्रा मौजूद रहे। घ्मुख्य अतिथि ने मार्चपास्ट कर रही टीमों की सलामी ली और प्रतिभागियों को खेल शपथ दिलाई। बालिकाओं की 400 मीटर दौड़ के साथ खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ।

मंगलवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुरू हुई दो दिवसीय परिषदीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि जॉइन्ट मजिस्ट्रेट मनीषा धारवे ने बच्चों से पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ खेलने की अपील की। उन्होंने कहा खेलों से न सिर्फ सेहत दुरुस्त रहती है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। बीएसए प्रवीण तिवारी ने कहा खेल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ–साथ अनुशासन और टीम वर्क भी सिखाते हैं। उन्होंने बच्चों से पूरे जोश और जज्बे के साथ खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने को कहा। इससे पहले मुख्य अतिथि ने खेल ध्वज फहराया और मार्चपास्ट की सलामी ली। गत वर्ष की चौंपियन प्रीति ने जब मशाल लेकर ट्रैक पर दौड़ लगाई तो मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुख्य अतिथि ने दौड़ में विजेता बच्चों को मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया।

सांस्कतिक कार्यक्रमों की श्रंखला में रिसोर्स सेंटर के बच्चों ने बंशी बाजे गीत पर मनमोहक प्रस्तुति दी। राजापुर मंडी के बच्चों ने जंक फूड वर्सेज हेल्दी फूड डिबेट के जरिये खूब वाहवाही बटोरी। लखीमपुर देहात और गनेशपुर समेत तमाम विद्यालयों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया।

खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी नीरज मौर्य, बीईओ देवेश राय, बीईओ शत्रुघ्न सरोज, बीईओ आशीष कुमार पांडेय, बीईओ अखिलानंद राय, बीईओ ब्रजराज सिंह,बीईओ धर्मेश यादव, बीईओ रमन सिंह,बीईओ फूलचंद,बीईओ शशांक सिंह,बीईओ संजीव कुमार भारती

बीईओ भगवान राव सहित सभी संगठनों के पदाधिकारी, शिक्षक व प्रतिभागी बच्चे शामिल हुए।

विजेता प्रतिभागियों को अफसरों ने किया सम्मानित

प्राथमिक स्तर में बालक वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता में बेहजम प्रथम व निघासन को द्वितीय स्थान मिला।

प्राथमिक स्तर में बालक वर्ग की 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में नकहा से शिवमोहन प्रथम, निघासन से अरमान द्वितीय व मितौली से कृष्णा तृतीय स्थान पर रहे।प्राथमिक स्तर में बालिका वर्ग की 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में पलिया से प्रीति को प्रथम, रमियाबेहड़ से आलिया को द्वितीय व मोहम्मदी से जोया को तृतीय स्थान मिला। जूनियर में बालिका वर्ग की 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में कुम्भी से तान्या प्रथम, नकहा से अफसाना द्वितीय व मितौली से अंजली राज तृतीय स्थान पर रही।जूनियर में बालिका वर्ग की बालीबाल प्रतियोगिता में लखीमपुर विजेता व पलिया उपविजेता रहा। मैदान पर मौजूद अफसरों ने सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया।

जन साहस संस्था और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के संयुक्त तत्वावधान में कंस्ट्रक्शन साइट पर लगाया गया कैंप

'लखनऊ, 23 दिसंबर 2025।'

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक एवं जन साहस संस्था के संयुक्त तत्वावधान में एल्डिको ट्रिनिटी, गोमती नगर (पुलिस मुख्यालय के पास) स्थित कंस्ट्रक्शन साइट पर श्रमिकों के लिए एक विशेष सुविधा शिविर का आयोजन किया गया। यह कैंप प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक सफलतापूर्वक संचालित हुआ।

शिविर में आयुष्मान भारत कार्ड निर्माण, नए बैंक खातों का उद्घाटन, आधार से मोबाइल नंबर लिंकिंग तथा ई–श्रम कार्ड के पंजीकरण एवं नवीनीकरण की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। कैंप का संचालन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अधिकारी सहायक प्रबंधक–अमान, शाखा डाकपाल–अनिल के मार्गदर्शन में किया गया।

कैंप में कुल '81 श्रमिकों' ने सहभागिता की, जिनमें से '30 श्रमिकों एवं उनके परिजनों के कुल 60 आयुष्मान कार्ड' बनाए गए। इसके अतिरिक्त '30 श्रमिकों के ई–श्रम कार्ड' का पंजीकरण किया गया तथा नवीनीकरण हेतु श्रमिकों की सूची भी तैयार की गई। इस कार्य में सहायक कर्मचारी 'श्री आशीष वर्मा' का विशेष सहयोग रहा।

जन साहस संस्था उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा एवं सुरक्षित प्रवास के लिए कार्यरत है। संस्था की ओर से फील्ड ऑफिसर फरहीन बानो एवं जन साथी अमित'' ने शिविर के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रमिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे उनके लिए अत्यंत उपयोगी बताया।

गोवंश का कटा सिर मिलने से हिंदू संगठनों में आक्रोश

बांदा। मंगलवार को शहर के स्वराज कालोनी में मंदिर के पास गोवंश का कटा हुआ सिर मिलने से अफरा–तफरी मच गयी। मामले की जानकारी होने पर हिंदू संगठनों के तमाम लोग मौके पर पहुंच गये और नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को जांच कर कार्यवाही का आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को शहर के स्वराज कालोनी मोहल्ले में गली नंबर–2 के पास स्थित शिव मंदिर के पास ही गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर मिलते ही अफरा–तफरी मच गयी। घटना की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और धीरे–धीरे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के साथ मोहल्ले के लोग एकत्र हो गए और नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। मोहल्लेवालों और हिंदू संगठनों के लोगों ने गोवंश का सिर उठाकर सड़क पर रख दिया और सड़क पर जाम लगाि दया। जाम के दौरान तमाम वाहन फंसे रहे। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पुलिस ने तत्काल गोवंश के सिर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरी घटना को जानवरों के नोचने का मामला बताया है। सीओ सिटी मेविस टॉक ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जांच के बाद तस्वीर साफ हो सकेगी। उधर गौरक्षा समिति के अध्यक्ष महेश प्रजापति ने पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग बुलंद की है। कहा है कि शहर का धार्मिक माहौल बिगाड़ने की नियत से किसी अराजकतत्व ने घटना को अंजाम दिया है।

मुरादनगर सड़क हादसे में 8 लोग घायल, घायलों को भेजा गया जिला अस्पताल

डीएम, एसपी, एसडीएम पहुंचे जिला अस्पताल, घायलों का जाना हाल

लखीमपुर खीरी। तहसील लखीमपुर के मुरादनगर के पास हुई सड़क दुर्घटना में आठ लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए घायलों को एंबुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहाँ उनका चिकित्सकों की देखरेख में तुरंत उपचार शुरू किया गया, जिसमें दो लोगों का

उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलबेहड़ में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा, एसडीएम सदर अश्वनी कुमार सिंह सीधे जिला चिकित्सालय पहुंचकर घायलों का कुशलक्षेम जाना और हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया। डीएम–एसपी ने चिकित्सकों से घायलों को दिए जा रहे मेडिकल ट्रीटमेंट की जानकारी लेकर समुचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डीएम ने घायलों का बेहतर उपचार करने के लिए चिकित्सकों को निर्देश दिया।

भाजपा नेता डा. विजय राय ने गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत बूथों का किये निरिक्षण

(अभय पाण्डेय)

कुशीनगर।आज भाजपा नेता डॉ. विजय कुमार राय ने गहन मतदाता पुनरीक्षण (ैप्) अभियान के अंतर्गत तमकुही विधानसभा के बूथ संख्या 132 व 133 पर पहुँचकर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया।बी एल ओ एवं बूथ अध्यक्ष के साथ मिलकर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान कुल 29 नॉन–ट्रेसबल मतदाता चिन्हित हुए जिनके संबंध में मौके पर स्पष्ट जानकारी साझा की। इस क्रम में जिन प्रमुख लोगों की उपस्थिति व सहयोग रहा उनमें धर्मेंद्र कुंअर संत कुमार मिश्र, ललन मद्धेशिया पूर्व प्रधान, जाकिर हुसैन (प्रधान), प्रदीप कुमार गुप्ता (जिला पंचायत सदस्य), कन्हैया गुप्ता (पूर्व प्रधान), छोटेलाल मद्धेशिया, अजय कुमार मिश्रा, बीरेंद्र कुशवाहा, अमर प्रसाद, रजीद आलम, अवधेश चौहान, धनंजय कुशवाहा, रामजीत कुशवाहा, महेंद्र कुशवाहा, उमा देवी, पासपती देवी, सुभावती देवी, प्रेमचंद, डी.एन. मौर्या, श्यामसुंदर गुप्ता, बब्बन गुप्ता, राजेंद्र ठाकुर, सुभान आहट, उदय

पटेल सिंह एवं शंभू कुशवाहा शामिल रहे।

मतदाता सूची की शुद्धता के लिए आवश्यक है कि हर बूथ पर इसी तरह सभी कर्मी और जनप्रतिनिधि मिलकर जिम्मेदारी से कार्य करें।

विकास की रफ्तार पर महापौर की सख्त नजर

नगर निगम सभागार में शहर के विकास कार्यों की हुई गहन समीक्षा बैठक

शाहजहाँपुर। नगर निगम सभागार में आज महापौर की अध्यक्षता में शहर के विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर क्षेत्र में संचालित एवं प्रस्तावित विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। महापौर ने सड़कों

के निर्माण, नालियों की सफाई, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, पार्कों के सौंदर्यीकरण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों पर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएँ, ताकि आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिल सकें। महापौर ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य जनपद को स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित शहर बनाना है और इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

पूर्व विधायक कुलदीप सेगर को हाईकोर्ट से मिली जमानत समर्थकों खुशी की लहर

मदन चौरसिया जिला संवाददाता उन्नाव पब्लिक की लहर।दिल्ली हाई

कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उन्नाव जिले में एक अलग–सी हलचल और भावनात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को कानूनी प्रक्रिया के तहत सस्पेंड करते हुए 15 लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत प्रदान की है। यह निर्णय न्याय व्यवस्था की उसी भावना को दर्शाता है, जिसमें हर व्यक्ति को कानून के दायरे में सुनवाई और अवसर मिलता है।इस फैसले के बाद जनपद उन्नाव में लोगों के बीच तरह–तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोग इसे कानून पर विश्वास और धैर्य की जीत के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि जब न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो समाज में संतुलन और भरोसे की भावना मजबूत होती है। उन्नाव की राजनीति और सामाजिक जीवन में यह क्षण लोगों को यह याद दिलाता है कि न्याय, संवैधानिक प्रक्रिया और मानवीय संवेदनाएंकृतीनों साथ–साथ चलती हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाला समय शांति, समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेगा, जिससे समाज में आपसी विश्वास और सौहार्द बना रहे।

आज जरूरत है कि हम सभी दिल में संयम रखें, कानून पर भरोसा करें और एक बेहतर, संतुलित और मानवीय समाज की ओर कदम बढ़ाएंकृताकि अंदर से एक अच्छा और सुकून देने वाला एहसास बना रहे।

प्रकाशक, मुद्रक,स्वामी, एवं सम्पादक चन्द्र प्रकाश द्वारा,शिरीन प्रिंटिग प्रेस,भूसामंडी,कसाईबाड़ा,अमीनाबाद, लखनऊ से मुद्रित करा कर ३३ भगवती निवास पानदरीबा चारबाग, लखनऊ २२६००४ से प्रकाशित।
सम्पादकः चन्द्र प्रकाश
मो.9305619783 R.N.I.NO UPHIN/2014/56940
समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

बाल विवाह मुक्तभारत 100 दिवसीय अभियान का आयोजन बाबूलाल यादव इंटर कॉलेज उन्नाव में किया गया

मदन चौरसिया जिला संवाददाता उन्नाव 23 दिसंबर 2025 प्रोबेशन अधिकारी श्री क्षमानाथ राय ने बताया है कि आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में व मुख्य विकास अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के उपलक्ष्य में बाबूलाल यादव इंटर कॉलेज उन्नाव में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन चाइल्ड हेल्प लाइन कोऑर्डिनेटर दिवाकर ओझा द्वारा किया गया। चाइल्ड हेल्प लाइन सुपर वाइजर सलमा ने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी दी और स्पॉन्सरशिप योजना के विषय में बताया कि ऐसे सभी बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो या दोनों में किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो या ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से असहाय हो उन बच्चों को ये लाभ दिया जा रहा है बाल विवाह से होने वाली सभी मानसिक व शारीरिक समस्याओं को बताया व बच्चों को सभी हेल्प लाइन नंबर 1098, 112, 1090, 181 की जानकारी दी गई और कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को शपथ भी दिलाई गई।बच्चों को बताया गया अगर कही बाल विवाह हो तो इसकी सूचना 1098 या जिला प्रोबेशन अधिकारी को दे सकते हैं। विद्यालय में प्रधानाचार्या श्रीमती साधना सिंह व समस्त शिक्षक व शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने बस स्टेशन स्थित रैन बसेरे में बाटे कंबल..

संबाददाता अनीता तिवारी सुलतानपुर– कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने बस स्टेशन पर स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां आराम कर रहे लगभग दर्जनों जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने कहा कि शीतलहर के दौरान किसी भी यात्री को कोई परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने रैन बसेरे में साफ–सफाई,गर्म पानी, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों को दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),अधिशासी अधिकारी नगर पालिका,नायब तहसीलदार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

किसानों के अधिकारों, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए चौधरी चरण सिंह जी का संघर्ष आज भी प्रासंगिक : राकेश मौर्य

'जौनपुर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी जौनपुर के तत्वाधान में जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य की अध्यक्षता में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत रत्न श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती समारोह पूर्वक 11 बजे दिन में समाजवादी पार्टी जौनपुर कार्यालय सदर चुंगी अल्फस्टीनगंज में मनाई गई। सर्वप्रथम उपस्थित सपाजनों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया तथा उनके विचारों पर चलने का पुनः संकल्प लिया। इस अवसर पर ज़िला महासचिव आरिफ हबीब ने गोष्ठी आयोजित कर उनके जीवन दर्शन पर चर्चा कराई।

अध्यक्षता करते हुए ज़िलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने ग्रामीण समाज और किसानों को राजनीतिक पहचान दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने कहा कि यदि चौधरी चरण सिंह न होते तो गांव के व्यक्ति के लिए सांसद या विधायक बनने की कल्पना भी मुश्किल थी। किसानों के अधिकारों, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए उनका संघर्ष आज भी प्रेरणादायक है। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और जनसेवा का प्रतीक रहा। चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने सपाजनों से अपील की कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर जनहित में कार्य करें और उनके पदचिह्नों पर चलें।

गोष्ठी को पूर्व विधायक श्रद्धा यादव, प्रदेश सचिव हिसामुद्दीन शाह, डॉ वीरेंद्र यादव, ज़िला उपाध्यक्ष गण, महेंद्र यादव, श्यामबहादुर पाल, डॉ जीतेन्द्र यादव, महेंद्र यादव नैपाल, ज़िला सचिव गण डॉ रामसूरत पटेल, कमलेश यादव, विधानसभा अध्यक्ष गण निज़ामुद्दीन अंसारी, रामू मौर्य, नंदलाल यादव, डॉ जंगबहादुर यादव, अशोक यादव नायक, हरिश्चंद प्रभाकर, श्यामनारायण बिंद, राम अभिलाष यादव, राजेश यादव आदि ने संबोधित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया। गोष्ठी में ज़िला उपाध्यक्ष इरशाद मंसूरी, सचिव गुलाब यादव, संजीव साहू, जिलानी ख़ान, शर्मिला रमेश यादव, सुशीला यादव, पूनम यादव, शालिनी यादव, राधिका यादव, प्रदीप पाल, अरविंद यादव, रविन्द्र मौर्य, अमजद अंसारी सहित सैकड़ों सपाजन उपस्थित रहे। गोष्ठी का संचालन ज़िला महासचिव आरिफ हबीब ने किया।

शीतलहर से राहत की बड़ी पहलः नगर निगम शाहजहाँपुर ने 65 स्थानों पर जलवाए अलाव

शाहजहांपुर/नगर निगम, द्वारा नगर क्षेत्र में शीतलहर के प्रकोप से आमजन को राहत देने हेतु व्यापक एवं प्रभावी व्यवस्थाएं की गई हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जिला अस्पताल, हनुमतधाम, घंटाघर, प्रमुख चौराहों व तिराहों सहित कुल 65 महत्वपूर्ण स्थलों पर अलाव जलवाए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्र में 03 स्थायी रैन बसेरों के साथ–साथ 03 अस्थायी रैन बसेरे भी संचालित किए जा रहे हैं। इन रैन बसेरों में ठहरने वाले जरूरतमंदों के लिए कंबल, बिस्तर, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, तिरपाल, मैटिंग आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

शीतलहर की गंभीरता को देखते हुए अस्थायी रैन बसेरों में एलपीजी गैस हीटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। रैन बसेरा / आश्रय गृहों का विवरण हनुमत धाम दृ क्षमतारू 100 व्यक्ति सुविधाएः बिस्तर, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था छोटी बिसरात पक्का पुल दृ क्षमतारू 60 व्यक्ति सुविधाएंः सफाई व्यवस्था, महिला/पुरुष शौचालय अजीजगंज (निकट रामलीला मैदान) दृ क्षमतारू 50 व्यक्ति सुविधाएः चिकित्सा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, अलाव रैन बसेरा टाउनहॉल (डूडा कार्यालय के निकट) दृ क्षमतारू 30 व्यक्ति सुविधाएंरू तिरपाल, फर्श पर मैटिंग (आवश्यकतानुसार) बस स्टेशन (अस्थायी) जिला अस्पताल (अस्थायी) सुविधाएंरू साइनबोर्ड/संकेतक सहित आवश्यक व्यवस्थाएं नगर आयुक्त, नगर निगम के निर्देशन में की गई ये व्यवस्थाएं शीतलहर से बचाव हेतु आमजन, विशेषकर निराश्रित एवं जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही हैं।

अवधी विकास संस्थान द्वारा 'एक शाम राजू श्रीवास्तव के नाम' कार्यक्रम, 26 दिसंबर को

लखनऊ,23 दिसम्बर 2025 (यूएनएस)। अवधी भाषा, संस्कृति और लोककलाओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए निरंतर सक्रिय अवधी विकास संस्थान की ओर से विश्वविख्यात हास्य कलाकार, पद्मश्री से सम्मानित एवं उत्तर प्रदेश राज्य फिल्म विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव की स्मृति में एक भव्य सांस्कृतिक संध्या 'एक शाम राजू श्रीवास्तव के नाम' का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन उनके जन्मदिन (25 दिसंबर) के अवसर पर शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 को सायं 6रू30 बजे से राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह (भारतखण्डे परिसर), कैसरबाग, लखनऊ में संपन्न होगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अवधी विकास संस्थान के अध्यक्ष एवं आयोजन समिति के प्रमुख विनोद मिश्रा ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा, उद्देश्य, अतिथियों की सूची तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजू श्रीवास्तव केवल एक हास्य कलाकार नहीं थे, बल्कि वे जन–जन की आवाज, आम आदमी की पीड़ा और समाज की विसंगतियों को हास्य के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत करने वाले एक युगपुरुष थे। उनका जाना भारतीय कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। विनोद मिश्रा ने कहा कि अवधी विकास संस्थान लंबे समय से अवधी भाषा, साहित्य, लोकसंस्कृति और कलाकारों को मंच देने का कार्य कर रहा है। स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव का अवधी भाषा और संस्कृति से गहरा जुड़ाव रहा। वे जहां भी मंच पर जाते थे, अपनी बोली, अपने अंदाज और अपने व्यंग्य से लोगों को हँसाने के साथ–साथ सोचने पर भी मजबूर करते थे। यही कारण है कि उनके सम्मान और स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों, साहित्यकारों और सांस्कृतिक कर्मियों को 'राजू श्रीवास्तव स्मृति सम्मान 2025' से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाएगा, जिन्होंने अपने–अपने क्षेत्र में समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है, बल्कि जो राजू श्रीवास्तव की तरह जनसंवेदनाओं से जुड़े हुए हैं। प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री पवन सिंह, सदस्य विधान परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार, समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉ. हरि ओम (आई.ए.एस.) राज्य मंत्री तथा श्री नटवर गोयल की उपस्थिति रहेगी। इनके अलावा अनेक गणमान्य अतिथि, प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग, साहित्यकार और कला प्रेमी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। विनोद मिश्रा ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में अवधी और हिंदी लोकसंगीत, गीत–संगीत एवं अन्य प्रस्तुतियां होंगी, जो राजू श्रीवास्तव के व्यक्तित्व और कृतित्व को समर्पित रहेंगी। सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध गायक मिथिलेश लखनवी एवं डॉ. कुसुम वर्मा अपनी मधुर प्रस्तुतियों से दर्शकों को भावविभोर करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से न केवल मनोरंजन बल्कि सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान विनोद मिश्रा ने कहा कि राजू श्रीवास्तव ने हास्य को केवल हँसी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, भ्रष्टाचार, राजनीतिक विद्रूपताओं और आम आदमी की समस्याओं को अपने व्यंग्य का विषय बनाया। यही वजह है कि वे हर वर्ग में समान रूप से लोकप्रिय रहे। अवधी विकास संस्थान चाहता है कि आने वाली पीढ़ियां उनके विचारों, उनके संघर्ष और उनकी कला से प्रेरणा लें। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन की तरह है, जो लोकभाषाओं और लोककलाओं के संरक्षण का संदेश देता है। अवधी जैसी समृद्ध भाषा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। राजू श्रीवास्तव स्वयं लोकभाषाओं के बड़े समर्थक थे और मंच से अक्सर अवधी, भोजपुरी और हिंदी के मिश्रण से अपनी अलग पहचान बनाते थे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्थान की संरक्षिका शिवा राजू श्रीवास्तव ने कहा कि राजू श्रीवास्तव का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका जीवन कलाकारों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने अवधी विकास संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से कलाकारों को सम्मान और समाज को दिशा मिलती है। प्रेस वार्ता में मौजूद पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों से विनोद मिश्रा ने अपील की कि वे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि समाज के हर वर्ग के लोग इसमें सहभागी बन सकें। उन्होंने कहा कि लखनऊ सांस्कृतिक नगरी है और यहां की जनता कला–संस्कृति को समझती है। ऐसे में यह कार्यक्रम निश्चित रूप से ऐतिहासिक और यादगार बनेगा।

ठंड में भी गर्मजोशीःजनपद में प्रशासन बना बेसहारा लोगों की ढाल

शाहजहांपुर। जनपद में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में नगर निगम एवं संबंधित विभागों द्वारा आमजन, विशेषकर बेसहारा एवं निराश्रित लोगों को ठंड से बचाने के लिए व्यापक और प्रभावी इंतजाम किए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर न हो। शहर के प्रमुख स्थलों पर संचालित रैन बसेरों को पूरी तरह सक्रिय कर आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। नगर निगम द्वारा टाउन हॉल, बस स्टैंड एवं जिला अस्पताल के समीप स्थित रैन बसेरों में गर्म बिस्तर, साफ–सुथरे गद्दे, पर्याप्त कंबल और स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ठंड से बचाव के लिए इन आश्रय स्थलों पर हीटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है तथा सुरक्षा और देखरेख के लिए 24 घंटे केयरटेकर की तैनाती की गई है। शीतलहर से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से शहर के 50 से अधिक प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक स्थानों एवं रैन बसेरों के बाहर नियमित रूप से अलाव जलाए जा रहे हैं। अलाव के लिए पर्याप्त मात्रा में सूखी लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जिला प्रशासन की टीमें लगातार इन स्थलों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही हैं, ताकि किसी प्रकार की लापरवाही न हो। जिलाधिकारी ने आम नागरिकों से मानवीय सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति खुले में सोता हुआ या ठंड से परेशान दिखाई दे, तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें। सहायता के लिए जिला कंट्रोल रूम नंबर 05842–351037, 462754 एवं टोल फ्री नंबर 1070 पर संपर्क किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शीतलहर के इस दौर में हर जरूरतमंद को सुरक्षित आश्रय और राहत उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ठंड में भी मानवता की गर्माहट बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।

जीएसटी टीम का गुप्ता ट्रेडर्स पर छापा, फर्जी बिलिंग से 50 लाख की कर चोरी उजागर

मीरानपुर कटरा शाहजहांपुर। कर चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जलालाबाद रोड स्थित गुप्ता ट्रेडर्स फर्म पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान फर्जी बिलिंग और बोगस इनवॉइस के जरिए की जा रही लाखों रुपये की कर चोरी का खुलासा हुआ है। इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है।

बरेली से पहुंची जीएसटी विभाग की टीम ने फर्म के कार्यालय और गोदाम में कई घंटों तक गहन जांच–पड़ताल की। छापे के समय फर्म से जुड़े कर्मचारी मौके पर मौजूद मिले, जिनसे विभागीय अधिकारियों ने पूछताछ की। टीम ने फर्म के लेखा–जोखा, बिक्री–खरीद के बिल, स्टॉक रजिस्टर सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बारीकी से जांच की।

जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। विभागीय सूत्रों के अनुसार फर्म का करीब 2 करोड़ रुपये का टर्नओवर है, जबकि अब तक लगभग 50 लाख रुपये की जीएसटी चोरी पकड़ी जा चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि फर्म ने पिछले 6 वर्षों से एक भी रुपये का टैक्स विभाग में जमा नहीं किया था।

इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि फर्म दिल्ली में पंजीकृत फर्जी कंपनियों के रैकेट से बोगस बिल खरीद रही थी और आगे भी फर्जी इनवॉइस जारी कर रही थी। फर्जीवाड़े की हद तब सामने आई जब रिकॉर्ड में एक छोटे ट्रक से एक बार में 2500–2500 बोरी सीमेंट की आपूर्ति दिखाई गई, जो भौतिक रूप से संभव ही नहीं है।

डिप्टी कमिश्नर अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में फर्जी बिलिंग के जरिए बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की पुष्टि हुई है। शेष टैक्स का आंकलन करने के लिए फर्म के दस्तावेज सीज कर लिए गए हैं और एक सप्ताह के भीतर पूरा असिसमेंट कर लिया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई में असिस्टेंट कमिश्नर वेद प्रकाश शुक्ला, राज्य कर अधिकारी ताराचंद एवं प्रदीप कुमार सहित विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे।

यूपी विधानसभा ने किसान नेता चरण सिंह को उनकी जयंती पर किया याद, अर्पित की श्रद्धांजलि

लखनऊ,23 दिसम्बर 2025 (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन संपूर्ण सदन ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री 'भारत रत्न' चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर याद किया और उनके कार्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में उल्लेखनीय कार्य किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधानसभा में शून्यकाल में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें स्मरण करते हुए कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री, कृषि व राजस्व मंत्री के रूप में किसानों के हित में उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह की सरकार में उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के सपूत चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' वर्ष 2024 में दिया। उन्होंने कहा, ''योगी सरकार ने उनकी स्मृतियों को चिरकाल तक स्मरणीय बनाये रखने के लिए 23 दिसंबर 2025 को भारत रत्न चौधरी चरण सिंह सीड पार्क को शुरू किया है, जिससे राज्य के अन्नदाता किसान को उत्कृष्ट बीज सुलभ हो सके और किसान बीज दाता किसान बनकर चौधरी साहब के सपनों को साकार कर सकें। शाही ने कहा, ''वर्तमान में सत्र चल रहा है इसलिए चरण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपना वक्तव्य दे रहा हूं।'' उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने पटवारी और जमींदारी प्रथा समाप्त करके किसानों को अपने खेत का मालिक बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि व्यापारी और बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण बंद करने के लिए मंडी की स्थापना के लिए उनको सदैव याद किया जाएगा। शाही ने कहा, ''उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में सरल और सादगी के प्रतीक चरण सिंह ने हर वर्ग के हित में काम किया। सामाजिक सुधारों के लिए देश सदैव उनका कृतज्ञ रहेगा।'' उन्होंने चरण सिंह को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए कहा, '' आज चौधरी साहब का जन्मदिन है और मुझे उनके निकट रहने का अवसर मिला है।' उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में किसानों की बात करने सबसे पहले चौधरी चरण सिंह आगे आये और काफी संघर्ष किया। पांडेय ने कहा कि जब वे उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री थे तो उन्होंने जमींदारी उन्मूलन किया और छोटे किसानों को उनकी भूमि पर स्ध्वामित्ध्व दिया। उन्होंने कहा कि जब पूरे देश में नक्सली आंदोलन चल रहा था, तब उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की नीतियों के कारण शांति व्यवस्था थी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में किसानों के बीच खेतों को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ तो उसका सारा श्रेय चौधरी चरण सिंह को जाता है। उन्होंने कहा, ''चौधरी साहब ने दबे, कुचले, पीड़ित को राजनीति में लाकर उनको आवाज दी।'' इसके पहले समाजवादी पार्टी (सपा) के कमाल अख्तर और पंकज मलिक समेत कई सदस्यों ने चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की। सपा के ही अतुल प्रधान ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों और कमेरों की आवाज थे और ''उनका जीवन हम सबके लिए एक उदाहरण है, ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरी दुनिया में उनके अनुयायी हैं।'' कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का व्यक्तित्व बहुत विशाल था और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने भूमि सुधार कानून लाकर किसानों के हक में निर्णायक भूमिका निभायी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि पूरा सदन चौधरी चरण सिंह के प्रति सम्मान व्यक्त करता है।

राजधानी में शीतलहर का कहर, नर्सरी व प्री-प्राइमरी स्कूल बंद

लखनऊ,23 दिसम्बर 2025 (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने 27 दिसंबर तक नर्सरी व प्री–प्राइमरी कक्षाओं को बंद रखने का आदेश जारी किया है। जबकि कक्षा एक से कक्षा आठ तक की कक्षाओं के समय मे परिवर्तन कर दिया है।जिला प्रशासन की तरफ से मौसम विभाग के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मंगलवार को जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी ने जनपद के सभी बोर्ड के विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्री–प्राइमरी और नर्सरी कक्षाओं में 24 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक पूर्ण अवकाश रहेगा। वहीं कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालयों का संचालन समय परिवर्तित किया गया है। इन कक्षाओं की पढ़ाई अब सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही कराई जाएगी। यह व्यवस्था 24 दिसंबर से अगले आदेश तक लागू रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। घने कोहरे और अत्यधिक ठंड के कारण सुबह के समय दृश्यता कम हो रही है, जिससे छात्रों के विद्यालय आने–जाने में परेशानी और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधन को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जायसवाल समाज ने भाजपा जिलाध्यक्ष का किया सम्मान, 245 जरूरतमंदों को बाटे कंबल

शाहगंज जौनपुर जायसवाल समाज द्वारा मंगलवार की सायं नगर के गांधी नगर कलेक्टरगंज स्थित फड़ पर सम्मान समारोह एवं कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ भाजपा नेता ओमप्रकाश जायसवाल ने की। इस अवसर पर समाज के लोगों ने भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति का माल्यार्पण कर सम्मान किया। सम्मान समारोह के पश्चात मुख्य अतिथि अजीत प्रजापति के कर कमलों द्वारा 245 जरूरतमंदों को ठंड से राहत देने के उद्देश्य से कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष ने जायसवाल समाज के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की और कहा कि गरीब व जरूरतमंद लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने समाज के लोगों से एसआईआर अभियान में सक्रिय भागीदारी करते हुए अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने की अपील भी की।जायसवाल समाज एवं श्रीराम लीला समिति के अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल ने बताया कि समाज समय–समय पर ऐसे सामाजिक और जनसेवा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष चिंताहरण शर्मा सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिससे आयोजन सफल एवं गरिमामय रहा।

अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर प्रधानमंती मोदी द्वारा "प्रेरणा स्थल" के लोकार्पण हेतु भाजपा की तैयारी बैठक संपन्न

मदन चौरसिया जिला संवाददाता भारतीय जनता पार्टी उन्नाव (भाजपा) जिला इकाई द्वारा आज बांगरमऊ स्थित एक रिजॉर्ट में एक महत्वपूर्ण श्तैयारी बैठकश का आयोजन किया गया। यह बैठक आगामी २५ दिसंबर को भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा श्प्रेरणा स्थलश के लोकार्पण एवं आयोजित होने वाली विशाल जनसभा की तैयारियों की समीक्षा हेतु बुलाई गई थी।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय धर्मपाल सिंह जी (प्रदेश महामंत्री संगठन) सम्मिलित हुए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रेरणा स्थल के लोकार्पण कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई। आगामी जनसभा में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और आम जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदारियां सौंपी गईं। उन्नाव से जाने वाले कार्यकर्ताओं हेतु मार्ग हेतु रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश संगठन महामंत्री भाजपा धर्मपाल सिंह ने कहा राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर स्थापित होने वाली डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भव्य प्रतिमाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करेंगी। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा राष्ट्रीय एकता, पंडित दीन दयाल जी की प्रतिमा एकात्म मानववाद और अंत्योदय, श्रद्धेय अटल जी की प्रतिमा सुशासन एवं आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को गहराई से समझने और उसे अपने जीवन में आत्मसात करने की निरंतर प्रेरणा देंगी। प्रदेश महामंत्री संजय राय सहित वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को याद करते हुए इस श्प्रेरणा स्थलश को आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बताया। बैठक का संचालन जिला महामंत्री बिपिन मिश्रा ने किया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री भाजपा संजय राय प्रदेश मंत्री भाजपा शंकर लाल लोधी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह क्षेत्रीय मंत्री दिलीप यादव, जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी निवर्तमान जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार स्थानीय विधायक श्रीकांत कटियार सदर विधायक पंकज गुप्ता, सफीपुर विधायक बंबा लाल दिवाकर पुरवा विधायक अनिल सिंह,मोहान विधायक बृजेश रावत और पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी एवं भारी संख्या में सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर में इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया।

श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही उजागर

राम गोपाल जमुनहा श्रावस्ती।जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्हीपुर की बड़ी लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को लगाए जाने वाले जीवन रक्षक टीकों की वैक्सीन सड़क किनारे कूड़े के ढेर में लावारिस हालत में पड़ी मिली। यह चौंकाने वाला मामला थाना हरदत्तनगर गिरन्ट क्षेत्र के बदला चौराहे का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, सुबह करीब 9 बजे से वैक्सीन बॉक्स सड़क किनारे कूड़े में पड़ा हुआ था। बॉक्स के अंदर रोटा, पेंटा, च्बट, इन्फ्लोएंजा, हेपेटाइटिस–ठ सहित कई महत्वपूर्ण जीवन रक्षक टीके मौजूद थे, जिनकी कुल कीमत 25 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वैक्सीन बॉक्स को एक ।छड द्वारा सड़क किनारे छोड़कर भागने की बात सामने आ रही है। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की कोल्ड चेन मैनेजमेंट प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नियमों के अनुसार, टीकों को निर्धारित तापमान में सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है, लेकिन इस लापरवाही से टीकों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर खतरा मंडरा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी प्रशासन को दी।

खबर लिखे जाने तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई स्पष्ट आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस गंभीर लापरवाही से न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, बल्कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ भी बड़ा खिलवाड़ हुआ है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है।

प्रकाशक, मुद्रक,स्वामी, एवं सम्पादक चन्द्र प्रकाश द्वारा,शिरीन प्रिंटिग प्रेस,भूसामंडी,कसाईबाड़ा,अमीनाबाद, लखनऊ से मुद्रित करा कर ३३ भगवती निवास पानदरीबा चारबाग, लखनऊ २२६००४ से प्रकाशित।
सम्पादकः चन्द्र प्रकाश
मो.9305619783 R.N.I.NO UPHIN/2014/56940
समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।